

बढ़ता राजस्थान

Since : 2004

कदम बढ़ाएं, सच के साथ

वर्ष : 15 | अंक : 91

जयपुर | सोमवार, 03 फरवरी, 2025 | माष, शुक्ल पक्ष षष्ठी संवत्-2081

भारत व राज्य सरकार से विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

मूल्य : ₹ 5.00 | पृष्ठ : 12

www.badhtarajasthan.in | badhtarajasthan@yahoo.com | badhtarajasthan.dainik | badhtarajasthan

सक्षिप्त समाचार

4 फरवरी को होगा खाटूश्याम बाबा का तिलक, सेवा-पूजा



बढ़ता राजस्थान

सीकर। 4 फरवरी को विश्व विख्यात सीकर के खाटूश्याम मंदिर में बाबा खाटूश्याम का तिलक और सेवा-पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन कई घंटों के लिए बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। मंदिर कमेटी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 4 फरवरी को बाबा खाटूश्याम की विशेष सेवा-पूजा और तिलक किया जाएगा।

4 फरवरी सुबह शुरू होंगे दर्शन-3 फरवरी को रात 9:30 बजे से मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। जो 4 फरवरी की शाम 5 बजे शुरू होंगे। बता दें कि हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा का तिलक और सेवा-पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिर में करीब 15 से 20 घंटे दर्शन बंद रखे जाते हैं। हर बार मंदिर कमेटी पहले ही इसकी सूचना जारी कर देती है। जिससे कि यहां आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। इस बार 28 फरवरी से बाबा खाटूश्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला आयोजित होने जा रहा है। मेले को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मेले के दौरान यहां 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।

दिल्ली पुलिस ने 2.23 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की, दो आरोपी पकड़े गए

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में मादक पदार्थ के दो तस्करो को पकड़ा है और उनके पास से 2.23 करोड़ रुपये मूल्य की 390 ग्राम हेरोइन जब्त की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पहले अभियान में पुलिस ने शुक्रवार को भलखा डेयरी से साहिदुल खान उर्फ बाबू खान को 294 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उस पर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। खान की गिरफ्तारी एक पुराने मामले के बाद हुई है जिसमें मंगोपुरी में सनी और सारिका नामक एक जोड़े को 280 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था।

बढ़ता TOON!

बजट वाला तोहफा दिल्ली में होगा फायदा ?



मुख्यमंत्री की शकूर बस्ती और त्रिनगर में चुनावी जनसभाएं

आम आदमी पार्टी ने घोटालों से दिल्ली की जनता को लूटा : भजनलाल शर्मा

कहा : केजरीवाल झूठ बोलने में कांग्रेस से भी आगे



बढ़ता राजस्थान

दिल्ली/जयपुर। भाजपा के स्टार प्रचारक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत जनसभाओं का सिलसिला जारी है। उन्होंने रविवार को शकूर बस्ती तथा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं में दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोलते हुए उनके भ्रष्टाचारों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। श्री शर्मा ने दिल्ली के प्रदूषण, ट्रेफिक जाम तथा पेयजल संकट जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा हमला करते हुए उनके भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की कड़ी आलोचना की। साथ ही, उन्होंने केन्द्र सरकार तथा

भाजपा शासित राज्यों के विकास कार्यों की बात करते हुए अपने भाषणों में केन्द्रीय बजट में दी गई सौगातों का भी उल्लेख किया।

जनसभाओं में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अना हजारे के आंदोलन के दौरान केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही आर्कट भ्रष्टाचार में डूब गए। वे हवाई चप्पल पहनकर तथा मारुति गाड़ी में सवारी कर सादगी का ढोंग करते थे। साथ ही, बंगला नहीं लेने का दावा भी करते थे, लेकिन एक बंगले से भी इनका मन नहीं भरा और कई बंगले तुड़वाकर अपने लिए शीशमहल बनवाया। श्री शर्मा ने कहा कि झूठ बोलने के मामले में केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से भी दो कदम आगे

बजट में जनता को मिली कई सौगातें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में पेश हुए केन्द्रीय बजट 2025-26 के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने इस बजट में 12 लाख रूपए तक की सालाना आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। एससी, एसटी और महिला उद्यमी, जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको बिना गारंटी 2 करोड़ रूपए तक के ऋण की योजना लॉन्च की गई है। कैसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटों का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने

कहा कि मुक्त की जनता ही मुक्त की मालिक है। दिल्ली के लोगों के पास मौका है कि वे दिल्ली के विकास में बाधा बनी आप-दा को हटा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता से जनहितकारी सरकार का चुनाव करें। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को कमल के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली को एक नया भविष्य दें तथा शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्री करनल सिंह तथा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्री तिलक राम गुप्ता जैसे सेवाभावी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाकर दिल्ली के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाएं।

निकल गए हैं। कांग्रेस ने तो अपने भ्रष्टाचार तथा तुष्टीकरण की राजनीति से देश को लूटा ही, दिल्ली में केजरीवाल एंड पार्टी ने उससे भी ज्यादा लूट-खसोट की। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करना और भ्रष्टाचार कर जेल जाना इनकी आदत सी बन गई है। कलासरूम बनाने के नाम पर 1 हजार 300 करोड़ रुपये का घोटाला, स्वास्थ्य क्षेत्र में 65 हजार फर्जी लैब परीक्षण कर 300 करोड़ रुपये का घोटाला तथा बस खरीद घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जैसे बड़े-बड़े घोटाले कर दिल्ली की जनता को लूटा। शराब घोटाले में तो इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी जेल हुई।

श्री शर्मा ने केन्द्र सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश में

आया बदलाव हम सब ने देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में किए वादे 2019 तक और 2019 में किए वादे 2024 तक पूरे किए हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारों विकास की गंगा बहा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी हमारी सरकार को एक साल से कुछ ही अधिक समय हुआ है। मगर हमने हमारे संकल्प पत्र के आधे से अधिक वायदे पूरे कर दिए हैं। जबकि देश के दिल दिल्ली में दिया तले अंधेरा जैसी हालत है। पिछले 10 साल से यहां के लोग प्रदूषण, शक्ति जाम, सीवरेंज, टूटी सड़कों, गंदगी और पेयजल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

झाड़ू के तिनके बिखरे, आप-दा के नेता छोड़कर जा रहे : पीएम मोदी



बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली पहुंचे। पीएम ने आरके पुरम में करीब 1 घंटे जनता को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आप-दा और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की।

पीएम मोदी ने रैली की शुरुआत देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई के साथ की। मोदी ने कहा- बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तीन दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत

आने वाला है। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने-संवारने में ऊर्जा लगाए। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है- अबकी बार मोदी सरकार। साथियों दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरी दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी दिल्ली वासियों की सेवा का अवसर जरूर दें।

उबल इंजन सरकार पर बोले मोदी

गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी सरकार बनानी है जो लड़ाई-झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे। जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने-संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए।

बस खाई में गिरी, 5 श्रद्धालुओं की मौत

35 जखमी, सभी एम्पी के रहने वाले; 48 तीर्थयात्री त्यंबकेश्वर से झरका जा रहे थे

बढ़ता राजस्थान



अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के डांग जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस गहरी खाई में गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 17 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रविवार सुबह करीब 4.15 बजे हुआ। सापुतारा हिल स्टेशन के पास ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह खाई में गिर गई। बस महाराष्ट्र के त्यंबकेश्वर से 48 तीर्थयात्रियों को लेकर गुजरात के झरका जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। तीर्थयात्री मध्य प्रदेश

के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों के थे। अधिकारी बोले- ब्रेक फेल होने से हादसा डांग कलेक्टर महेश पटेल ने कहा- यात्रियों ने बताया, बस सापुतारा में

रुकी थी। जहां चाय और नाश्ता किया गया। इसके बाद यात्रा दोबारा शुरू हुई। ऐसा लगता है कि ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया।

होम डिलेवरी | सुस्वागतम् | एसी. व्यवस्था

श्री श्याम रेस्टोरेन्ट

शुद्ध शाकाहारी लाजवाब, स्वादिष्ट खाना, उत्तम सर्विस, साथ ही गार्डन रेस्टोरेन्ट की लॉन के बीच उचित व्यवस्था।

फैमिली की अलग से बैठने की व्यवस्था

चाही खाना साधारण रेट पर

बर्ड डे पार्टी, शादी पार्टी, किट्टी पार्टी
एवं अन्य शुभ अवसरों की पार्टियों का आयोजन किया जाता है।

पैकिंग की उत्तम व्यवस्था
एक बार सपरिवार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें।

टोंक रोड, गोनेर मोड़, रेल्वे फाटक के बीच पीपल के पेड़ के पास, J.N.I.T. College, Y.I.T. College के सामने, सांगानेर, जयपुर

रतन मेरवा गो. : 97998-86970

किसानों का खटकड़ टोल पर प्रदर्शन खत्म

कंपनी ने 200 रुपए लौटाए, किसान का झंडा लगी गाड़ी से टैक्स नहीं वसूलेंगे, 3 मांगें मानीं

बढ़ता राजस्थान

जौद (एजेंसी)। हरियाणा के जौद में दिल्ली-पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटकड़ टोल प्लाजा पर 5 घंटे बाद किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। प्रशासन ने किसान नेताओं और टोल प्लाजा मैनेजमेंट के बीच मीटिंग कराई। जिसके बाद किसान नेता रवि आजाद, विकास सिंसर, बिंदू नंबरदार और सिक्किम सफा खेड़ी ने बताया कि टोल प्रबंधन ने जिन किसान नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और टोल काटा था, उनके 200 रुपए वापस कर दिए। इसके साथ ही यह भी सहमति बनी कि भविष्य में किसान संगठन की किसी भी गाड़ी से टोल नहीं लिया जाएगा। गाड़ी पर झंडा भी लगा होगा तो भी टोल नहीं होगा। किसान अपना आईकार्ड दिखा देंगे। इसके अलावा जिन गाड़ियों पर फास्ट टैग नहीं लगा होगा, वाहनों से दो गुणा की बजाय नामल टोल टैक्स लिया जाएगा।



2 हजार से ज्यादा वाहन गुजरे, दो लाख से ज्यादा का नुकसान

खटकड़ टोल पर प्रतिदिन 7 से 8 हजार वाहन गुजरते हैं, जिससे टोल प्रबंधन को साढ़े आठ से 9 लाख रुपए रेवेन्यू आता है। रविवार को 5 घंटे तक टोल फ्री रहने से इस दौरान 2 हजार से ज्यादा वाहन बिना टोल दिए गुजरे और टोल प्रबंधन को दो लाख से ज्यादा की चपत लगी है। किसानों ने यहां सुबह 11 बजे टोल फ्री कर दिया था। किसान दरी बिखार टोल पर बैठे हुए थे। उन्होंने लोगों की गाड़ियां बिना टोल दिए ही वहां से निकालीं। जिस वजह से लोगों की गाड़ियां फ्री में निकलीं। किसान नेताओं का कहना था कि टोल के कर्मचारी किसान संगठनों के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

दुपहिया वाहन चुराने वाले
दो वाहन चोर गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से चोरी की चार बाइक बरामद की हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजकिनी गौतम ने बताया कि मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले वाहन चोर गणेश बेरवा और नवल किशोर को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपित सांगानेर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से चोरी की चार बाइक रिकवर की हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों बदमाश शांतिर वाहन चोर हैं। कई सालों से वाहन चोरी की वारदात करते हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने जयपुर में दो दर्जन से अधिक वाहन चोरी करना कबूल किया है। ये लोग चोरी किये गए वाहन को जयपुर और जयपुर के बाहर के जिलों में कम दामों में बेच दिया करते हैं। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ कई चोरी और अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में अन्य वाहन चोरी की वारदात भी खुल सकती हैं।

हिन्दू क्रांति सेना के चन्द्रप्रकाश पटवारी
को ब्यावर का प्रभारी बनाया, धर्मान्तरण
की घटनाओं को लेकर चिन्ता व्यक्त की

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णु दत्त धीमान)। ब्यावर में रविवार को अखिल भारत हिन्दू क्रांति सेना की बैठक चांग गेट स्थित अन्नपूर्णा भोजनालय के पास आयोजित की गई। बैठक में ब्यावर जिले के लिए सेवानिवृत्त चन्द्रप्रकाश पटवारी को प्रभारी बनाया गया है ताकि ब्यावर क्षेत्र में गौ-रक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं में जागृति लाये और आस-पास के क्षेत्रों में हो रहे धर्मान्तरण की घटनाओं को लेकर उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके उसकी रूप-रेखा तैयार करने के आदेश दिये गये हैं। नवनियुक्त प्रभारी चन्द्र प्रकाश पटवारी ने बताया कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे निष्ठापूर्वक निभाने की कार्यवाही की जायेगी। जिले के तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उनकी राय लेकर जिले गौ-रक्षा के लिए अभियान चलाया जायेगा। जिले के प्रत्येक सब डिविजन पर गौशालाओं के लिए प्रयास किये जायेंगे। गौ-शालाओं में बिगड़ती व्यवस्था को सुधार करवाने में सहयोग किया जायेगा (उन्होंने बताया कि ब्यावर जिले के आस-पास के क्षेत्रों में हो रहे धर्मान्तरण की घटनाएं अपने आप में एक बड़ा चिन्तनीय विषय है। क्षेत्र में बांग्लादेशी रोहिया मुसलमानों के होने की पूरी संभावना है चूंकि जब अजमेर में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है तो ब्यावर में सोने-चांदी के व्यवसाय से सैकड़ों बांग्लादेशी जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपना पते तक परिवर्तित करवा रखे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच करे तो ब्यावर व ब्यावर के आस-पास के क्षेत्रों में भी कई बांग्लादेशी मिल जायेंगे। नवनियुक्त प्रभारी पटवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ब्यावर जिले में रह रहे बांग्लादेशी लोगों की पहचान कर उन्हें अपने देश भेजने, धर्मान्तरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित गौ-शालाओं के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की है।

भामाशाह के सहयोग से आर्ष
गुरुकुल की छात्राओं को स्कूल बैग भेंट

बढ़ता राजस्थान

भुसावर (यतेन्द्र पाण्डेय)। भुसावर निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में भारत विकास परिषद शाखा के सहयोग से स्थानीय आर्य समाज मंदिर में संचालित आर्ट कन्या गुरुकुल कि छात्राओं को बसंत पंचमी के अवसर पर स्कूल बैग भेंट किए गए। आर्य समाज संरक्षक वैद्य दिनेश चंद्र पाण्डेय की उपस्थिति में निरंजन सेवा समिति नई दिल्ली की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गुरुकुल कन्या के संचालक पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं द्वारा किए जा रहे वैदिक कार्यक्रमों के साथ अन्य नारी उत्थान के संदेशों का संचार किया इस अवसर पर आर्य समाज अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मास्टर प्रकाश चंद्र नित्यानंद पांडे मितल भारत विकास परिषद शाखा के शेर सिंह सैनी देवकीनंदन सोनी नीरज शर्मा राजेश गोयल चंद्र प्रकाश आर्य हेमंत पांडे निष्क सोनी सहित महिला मंडल उपस्थित रहा इस राजेश गोयल, पूर्व अध्यक्ष चंद्रप्रकाश आर्य, हेमंत पाण्डेय, निष्क सोनी एवं आर्य समाज के प्रकाशचंद्र शर्मा, नित्यानंद पांडेय, रजनी मितल, आदि मौजूद रहे।

54 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने राजस्थान
राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी
(प्रारंभिक) परीक्षा-2024 में आजमाया भाग्य

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार, 2 फरवरी, 2025 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन हुआ। भर्ती परीक्षा का आयोजन से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जयपुर शहर के 240 केंद्रों पर हुआ। जिसमें कुल 91 हजार 513 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री देवेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि जयपुर शहर के केंद्रों पर 54.41 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत एवं किस्मत को आजमाया। जयपुर में कुल पंजीकृत 91 हजार 513 अभ्यर्थियों में से 49 हजार 794 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे।

ताल छपर अभयारण्य पूरी दुनिया में मशहूर, बर्ड फेस्टिवल
के आयोजन होने से क्षेत्रीय विशेषताओं को मिलेगा बढ़ावा

बर्ड फेस्टिवल -2025 का हुआ समापन, विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं व प्रतिभागियों का किया सम्मान

बढ़ता राजस्थान

चुरू (नि.स.)। जिला प्रशासन, वन विभाग, छपर नगरपालिका और सम्प्रीति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जिले के तालछपर वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल - 2025 रविवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह में सांसद राहुल कर्वा, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा, श्रवण कुमार माली, आईएफएस संग्राम सिंह, एडीएम मंगलराम पूर्णिया, डीएफओ वीरेंद्र सिंह कृष्णिया, एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, डॉ ममता शर्मा, डॉ अनिल छंगानी, सरवन्दीप सिंह, देवेन्द्र मिस्त्री, ईओ भवानीशंकर व्यास सहित अतिथि मंचस्थ रहे। एसीएफ महेन्द्र लेखाला, श्रवण कुमार माली, धनश्याम नाथ कच्छवा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद राहुल कर्वा ने



कहा कि ताल छपर अभयारण्य पूरी दुनिया में मशहूर है। अब बर्ड फेस्टिवल के आयोजन होने से यहां की क्षेत्रीय विशेषताओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार व जिला प्रशासन के नवाचारों के साथ आमजन मिलकर सहयोगी की भूमिका निभाते हुए वन्य जीव संरक्षण पर विशेष प्रयास करें। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का यहां नियमित भ्रमण करवाया जाए ताकि वे वन्य जीवन से जुड़ी जानकारी से रूबरू हों और

पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजनों से यहां की स्थानीय कलाओं व टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर्यटन व खनन पर निर्भर करती है। जिले का ताल छपर अभयारण्य संपूर्ण विश्व में विशेष पहचान रखता है। हम सभी मिलकर ताल छपर को पर्यटकों को आकर्षित करने वाला डेस्टिनेशन बनाएं। इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय

जनप्रतिनिधियों व नागरिकों का भरपूर सहयोग रहे। इससे स्थानीय विशेषताओं को भी प्रमोट करने का मौका मिलेगा और प्रयास करें कि प्रतिवर्ष बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजन किए जाएं। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि जिला प्रशासन की मंशा है कि बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजनों से इको टूरिज्म और लाइवलीहुड को बढ़ावा मिले व यहां की क्षेत्रीय विशेषताएं बड़े पैमाने पर नजर आएं। उन्होंने कहा कि ऐसे

आयोजनों से स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और यह एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हम सभी आगे आएँ और अपने जिले की समृद्ध विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पक्षी उत्सव से यहां आने वाले पर्यटकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नागरिकों, स्कूली विद्यार्थियों एवं भावी पीढ़ी में जागरूकता बढ़ेगी और प्रकृति संरक्षण की

दिशा में सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हम भावी पीढ़ी को प्रकृति व प्राकृतिक धरोहर से परिचित करवाते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में जोड़ें। इससे हमारे संपूर्ण देश का भविष्य निश्चित होगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय नागरिकों, मीडियाकर्मियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आयोजक टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं व
प्रतिभागियों का किया सम्मान

समापन समारोह में अतिथियों ने ऑफलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम रुचि जागड़, द्वितीय दीपिका प्रजापत, तृतीय मंजू प्रजापति व सांत्वना पुरस्कार से पूजा मेघवाल, ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम बिंदु कुमारी, द्वितीय किरण कोली, तृतीय सोरब प्रजापत, ऑनलाइन फोटोग्राफी में प्रथम बाबू सतदेवन, द्वितीय आशीष परिहार, तृतीय हिमांशु शर्मा तथा ऑनलाइन कॉम्पटिशन में प्रथम रामातार भाटिया, द्वितीय अशोक प्रजापत व तृतीय विनायक मेघवाल को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

आधी आबादी के विकास का
दूसरा नाम...जयपुर सक्षम अभियान

जिला कलक्टर के निर्देश पर विभिन्न योजनाओं का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन

बेटी के जन्म पर मनाया गया जन्मोत्सव, गणतंत्र दिवस समारोह में 5 हजार से ज्यादा हेनहार बेटियों को मिले प्रशस्ति पत्र

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर जिले में जारी सक्षम जयपुर अभियान आधी आबादी के पूर्ण विकास का दूसरा नाम बन गया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के ध्येय को साकार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत समाज में बेटी के जन्म को जन्मोत्सव के रूप में मनाये जाने की अवधारणा को पकड़वत करने के लिए जनजागरूकता फैलाई



जा रही है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में कन्या जन्मोत्सव के तहत आंगबाड़ी एवं अस्पतालों में कन्या जन्म पर विगत एक महीने में 1300 परिवारों को बेबी किट का वितरण किया गया, साथ ही, नवजात कन्या के नाम पर ही पंचायत में पौधारोपण भी किया गया है। डॉ. डोगीवाल ने जानकारी दी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में 5 हजार 769 हेनहार छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, कई समारोह में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में टॉप

तीन में स्थान हासिल करने वाली प्रतिभावान बालिकाओं के अभिभावकों को भी सम्मानित कर बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, उन्होंने बताया कि सक्षम जयपुर अभियान के तहत जयपुर की 36 पीएम श्री विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा बालिकाओं को गुड टच, बैड टच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ महत्वपूर्ण कानूनों की भी जानकारी प्रदान की गई। इन जागरूकता कार्यक्रम से जिले की 8 हजार से अधिक छात्राओं को लाभांवित कर जयपुर जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा एवं महिला सर्वाधिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गए।

रोटे. दीपक सुखाड़िया
रोटरी प्रान्तपाल निर्वाचित

बढ़ता राजस्थान

उदयपुर (नि.स.)। रोटरी क्लब उदयपुर हेरिटेज के पूर्व अध्यक्ष रोटरीयन दीपक सुखाड़िया रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 के वर्ष 2027-28 के लिये प्रान्तपाल निर्वाचित हुए।

क्लब अध्यक्ष प्रो. दीपक शर्मा ने बताया कि रोटरी अंतरराष्ट्रीय जिला 3056 हेतु वर्ष 2027-28 के लिए रविवार को जयपुर में सम्पन्न हुए दो दिवसीय जिला अधिवेशन के दौरान आगामी रोटरी वर्ष 2027-28 प्रांतपाल निर्वाचन के लिए हुए चुनाव में रोटरी हेरिटेज के पूर्व अध्यक्ष रोटरीयन दीपक सुखाड़िया को निर्वाचित घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि रोटरीयन दीपक सुखाड़िया पूर्व में जिला महासचिव और सहायक प्रांतपाल पद पर कार्य कर चुके हैं।

क्लब लिये यह गौरव की बात है कि पहली बार क्लब से रोटरी सदस्य प्रान्तपाल निर्वाचित हुए हैं।

समर्पण संस्था सदस्यों ने 16 वीं एयू जयपुर
मैराथन में दिया सामाजिक जागरूकता का संदेश

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था के सैकड़ों सदस्यों ने 16 वीं एयू जयपुर मैराथन में पर्यावरण, स्वच्छता, रक्तदान, बालिका शिक्षा व सेवा से सम्बन्धित सामाजिक जागरूकता संदेशों का प्रदर्शन किया। मैराथन में संस्था से जुड़े 162 सदस्यों ने पंजीकरण करवाकर टीम के साथ 6 किमी. ड्रॉम रन में भाग लिया। जिसकी शुरुआत में सभी सदस्यों ने समर्पण प्रांथना उच्चारित की जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस ड्रॉम रन में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉ.



दौलत राम माल्या के निर्देशन में माइक पर स्वच्छता व पर्यावरण के साथ अनेक सामाजिक जागरूकता के नारे लगाते हुए संस्था सदस्य आगे बढ़े सदस्यों के हाथों में संस्था के बैनर के साथ कुल 20 सामाजिक जागरूकता संदेशों की

तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों पर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार', 'क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। यही है मेरी ड्रॉम सिटी, रक्तदान महादान, एक दो एक दो, पेड़ काटना छोड़ दो', पर्यावरण का

रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाये पर्यावरण, अब हमने यह टाना है, भारत स्वच्छ बनाया है, अगर स्वर्ग मे चाहिए स्थान, तो कीजिए अंगदान आदि स्लोगन प्लेक्स पर लिखे हुए थे।

किसान रजिस्ट्री शिविर में प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन हो सुनिश्चित

● जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैट योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किये जायेंगे, जहाँ किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आई.डी. बनवाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में

● किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन के लिए तैयारियों की हुई समीक्षा

फार्मर आईडी के अलावा
किसानों को विभागीय योजनाओं से भी किया जाएगा लाभावि

किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन एवं जिले के समस्त किसानों का एग्रीस्टैट पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये हैं ताकि जिले के प्रत्येक किसान को ना केवल शिविरों के आयोजन की जानकारी हो बल्कि शिविरों में किसान फार्मर आईडी बनाने के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभावि हो सकें।

● जयपुर में 5 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों में होगा शिविरों का आयोजन

प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक होगा शिविरों का आयोजन

अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती सुमन पंवार ने बताया कि एग्रीस्टैट योजनांतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक किया जायेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जायेगी। शिविरों का आयोजन प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जाएगा। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशु पालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं

पंचायत राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभावि किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जायेगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाइल नम्बर की जरूरत होगी। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने, प्रधानमंत्री किसान/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी होगी।

बसंत पंचमी पर्व पर किया सरस्वती पूजन



बढ़ता राजस्थान

सरदारशहर (नि.स.)। रविवार को एसवीपी इंग्लिश एकेडमी में बसंत पंचमी पर्व एवं सरस्वती पूजन श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य भरत गौड़ ने मां सरस्वती का पूजन कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना के साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस अवसर पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए विद्यार्थी पूरे वातावरण को बसंतमय कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य गौड़ ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का प्राकट्य

माना जाता है, शिक्षा के मंदिर में विद्यादात्री मां सरस्वती का पूजन सबसे बड़ा पर्व होता है।

मां सरस्वती संपूर्ण विश्व में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर हम सबको विवेकपूर्ण ज्ञान का वरदान दें, जिससे हम देश एवं समाज की उन्नति में सहायक हो सकें। कार्यक्रम में अर्चना चौधरी, वंदना वर्मा, टीना शर्मा, दिव्या सोनी, अनिल कुमार, ज्योति सोनी, सरोज प्रजापति, गीतिका स्वामी आदि ने बसंत पंचमी पर्व के महत्व के बारे में बताया। मीनाक्षी डीडवानिया, खुशबू पांडिया, रायचंद आदि ने आयोजकीय भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम का संचालन प्रेम प्रकाश नाई ने किया।

स्वास्थ्य के 'महाकुंभ' एयू जयपुर मैराथन में 1 लाख लोगों ने लगाई डुबकी

16वीं एयू जयपुर मैराथन : भारत सहित 25 देशों के धावकों ने लगाई जयपुर की सड़कों पर दौड़

सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी, 3500 से अधिक विदेशी धावकों ने भी लिया भाग, मैराथन में फिर बने दो विश्व रिकॉर्ड

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। 'हौसला हो बुलंद अगर, तो कदमों में जहां होता है...' कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जयपुर के जेएनएल मार्ग पर, जहां सूरज की पहली किरण निकलने से पहले सर्द रात और ठंडी सड़कों पर हजारों की संख्या में धावक अपने हाथों में ग्लो बैंड बांधे अपने हौसले को परखाने चढ़ते हुए नजर आए। मौका रहा 16वीं एयू जयपुर मैराथन में, जहां रविवार को एक लाख से अधिक रनर्स एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कशमकश करते हुए दिखे। मारवाड़ी डोल नगाड़ों की थाप के बीच सुबह 3 बजे सु शुरू हुई मैराथन में 'डेनाइट' मैराथन का सर्द अहसास देखने को मिला।

इस अवसर पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने धावकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि, इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आयोजक पं.सुरेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद और फिटनेस के क्षेत्र में उनके समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और



प्रदेश की जनता को भी समय समय पर खेल और फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करते हैं और स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। आज का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन है, पहली बार 25 देशों के धावक हमारे मैराथन में दौड़ने आये हैं। इस दौरान एयू जयपुर मैराथन के आयोजक पं.सुरेश मिश्रा व नीलम मिश्रा के साथ, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन अनूप बरतारिया, निदेशक एयू स्माल फाइनंस बैंक ज्योति संजय अग्रवाल, एयू स्माल फाइनंस बैंक के डिप्टी सीईओ उत्तम टिबरेवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ

नेहा भसीन ने किया 'स्वैग से स्वागत'

सिंगर नेहा भसीन ने अपने चिर परिचित अंदाज में 'स्वैग से करेंगे स्वागत...' सांग गाकर धावकों का मनो स्वागत सा किया हो। इसके बाद नेहा ने 'धुनकी' और 'जग घुमया थारे जैसा न कोई' गाकर रनर्स को मोटिवेट किया।

आवास फाइनंस सचिंद्र भंडर, चेयरमैन आईएनए सोलर मनीष गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आईएनए सोलर विकास जैन, जीवन रेखा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. नीरज अग्रवाल,



योगेश मिश्रा, रिस डायरेक्टर रवि गोयनका, उप महापौर पुनीत कर्णावट सहित अन्य सम्मानीयजन उपस्थित रहे। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था द्वारा एयू स्माल फाइनंस बैंक के सहयोग, पावर्ड बाय आवास फाइनंस व को-पावर्ड बाय आईएनए सोलर से आयोजित होने वाली 16वीं एयू जयपुर मैराथन में दुनियाभर के 25 देशों के धावकों ने भाग लिया। फीमेल कैटेगरी में सीमा और मेल कैटेगरी में मानव शर्मा ने फुल मैराथन अपने नाम की। इस दौरान दो विश्व रिकॉर्ड भी बने। मैराथन में दिव्यांग

एवं बुजुर्ग प्रतिभागियों, 100 से ज्यादा व्यूरोक्रेट्स सहित कई गुप्स ने भी भाग लिया।

16वीं मैराथन में बने 20 विश्व रिकॉर्ड : दौड़ बदलाव की, दौड़ जीत की टैग लाइन को सार्थक करते हुए एयू जयपुर मैराथन विश्व रिकॉर्ड का पर्याय बनती जा रही है। अब तक हुई 16 मैराथन में 20 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दो विश्व रिकॉर्ड बने। आम मंत्रोच्चार करके ओम टी शर्ट पहनकर इस बार 14,000 से अधिक धावक भी मैराथन का हिस्सा बने। इस दौरान

पिछले रिकॉर्ड (12,397) को ब्रेक करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बना। इसमें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों एवं स्टाफ ने भाग लिया। एक जैसी ड्रेस में मैराथन और पगड़ी पहनकर रन जैसे कई विश्व रिकॉर्ड पहले ही बन चुके हैं। इस बार बसंती थीम को ध्यान में रखते हुए 10 हजार से अधिक महिला धावकों ने एक साथ पीला दुपट्टा पहनकर दौड़ लगाई। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें विधानी गुप ऑफ कॉलेज, फिफ्टी प्लो, फोर्टी और इकोप को फीमेल धावकों ने भाग लिया।

पिंजरापोल गौशाला में बसंत पंचमी महोत्सव में मां शारदा का पूजन व वंदन किया



बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। रविवार को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्री पिंजरापोल गौशाला टॉक रोड स्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड एग्रिकल्चर स्कूल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया व एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज के एमएससी (वनस्पति विज्ञान) फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के साथ अखिल भारतीय गौशाला स्वयंसेवा परिषद की जैविक पादप केंद्र की समस्त कार्यकर्ताओं देश व राष्ट्र को प्राकृतिक खेती के प्रकल्प के अंतर्गत आगे बढ़ने की

संकल्प के साथ गौ सेवा की दृष्टि से, मन बुद्धि व चेतन से ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान मां शारदा के चरणों में पुष्प व ऋतु फल इत्यादि के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर बसंत पंचमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ अतुल गुप्ता ने कहा कि हम माँ सरस्वती से यह विनती करते हैं की सभी विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के उपलक्ष में एक नई चेतना जागने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर हैनिमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी की सचिव मोनिका गुप्ता, छत्तीसगढ़ से पधारी महिला उद्यमी समीन खान व युवा

उद्यमी नागेंद्र जी भी मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टर अतुल गुप्ता के द्वारा किए जा रहे प्राकृतिक खेती के नवाचारों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन के बारे में कहा कि डॉक्टर गुप्ता का यह अपने आप में एक अंगुत्वा प्रकल्प है जो कि आज के युवा पीढ़ी को एक नई दिशा व रोजगार की ओर उन्मुख करता है। इस अवसर पर एसएस जैन सुबोध कॉलेज के विद्यार्थियों में जुजाराम, भावना कनखेड़ा, मोनिका वर्मा, कनिष्का अग्रवाल, मोनिका जांगिड़, दीपिका, शोभा चौधरी, विकास मीणा, संधीप कटारिया, निशा कवर्, तनु शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, व मोनिका मिश्रल मौजूद रहे।

महिला की हत्या कर पेट्रोल डालकर जलाया चेहरा रिंग रोड पुलिया के नीचे मिला महिला का अर्धनग्न शव

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। कानोता थाना इलाके में बूरथल रेलवे लाइन के पास रिंग रोड पुलिया के नीचे महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की अन्यत्र हत्या करने के बाद पहचान छिपाने के लिए महिला के शव को यहां पर डालकर उसके चेहरे पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। रविवार सुबह राहगीर ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है।

थानाधिकारी हिमन्त सिंह ने बताया कि रविवार सुबह करीब सात बजे राहगीर ने महिला का शव पड़ा होने की सूचना कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। महिला की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच है। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। महिला के हाथ पर प्रवीण लिखा हुआ है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन हादसा स्थल पर मिले आलामतात के आधार पर यह कहा जा सकता है

कि महिला के सिर पर वार कर अन्यत्र स्थान पर हत्या करने के बाद शव को ठिकाने के लिए लगाने के लिए पुलिया के नीचे फेंक दिया गया। महिला की पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने पेट्रोल डालकर उसके चेहरे को आग के हवाले कर दिया। इससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया। महिला की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला की कद काठी को देखकर आसपास के थानों में महिला की फोटो को सर्कुलेट की जा रही हैं। वहीं थाना पुलिस से महिला के गुमशुदगी के बारे में जानकारी ली जा रही है। मौके से एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। क्राइम सीन के आसपास कुछ साक्ष्य एकत्र कर रही हैं।

थानाधिकारी हिमन्त सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले हैं, जिसमें एक लज्जती कार नजर आ रही है। इस संदिग्ध कार की तलाश की जा रही है। कार को लेकर आस-पास के करीब दो दर्जन से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। यह कार दांतली गांव से होकर रिंग रोड पर पहुंची थी। हालांकि इस कार के नम्बर स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस इस कार का पता लगाने में जुटी है।

कार सवार युवकों ने जयपुर की सड़कों पर मचाया उत्पात

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। राजधानी की सड़कों पर शनिवार रात कार सवार युवकों ने जमकर हड़दंग मचाया। चलती कारों की विड़ो से बाहर निकलकर लटक कर दिखाते रहे। शोर मचाते चलती कारों की बोनट-छतों पर चढ़कर बैठ गए। मोती डूंगरी थाना पुलिस के कार्रवाई करने पर कारों को छोड़कर हड़दंग कर रहे कुछ युवक मौके से भाग निकले। पुलिस ने मौके पर मिली पांच कारों को जल्द कर हड़दंग मचाने वाले दो युवकों को पकड़ा है।

पुलिस हड़दंग मचाने वाले युवकों व उनके वाहनों की तलाश कर रही है। थानाधिकारी अजयकांत रतूड़ी ने बताया कि मोती डूंगरी इलाके में स्थित एक मैरिज गार्डन में शनिवार रात शादी का प्रोग्राम था। शनिवार देर रात शास्त्री नगर से बारात मोती डूंगरी आई थी। करीब 8-9 कारों में सवार होकर युवक शादी में शामिल होने आए थे। जालपुरा से होते हुए मोती डूंगरी आते समय चलती कारों की विड़ो से बाहर निकल व लटककर हड़दंग मचाना शुरू कर दिया। सड़कों पर शोर मचाते हुए अपने वाहनों की रेली

निकालने लगे। हड़दंग मचा रहे युवक चलती कार के विड़ो से बाहर निकलकर बोनट व छतों पर चढ़कर बैठ गए और शोर मचाने लगे। कार सवार युवकों के हड़दंग मचाने पर लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के सूचना देने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीमों को देखकर हड़दंग मचाने वाले कुछ युवक अपनी कारों को छोड़कर भाग निकले और कुछ अपने वाहनों को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने हड़दंगियों पर कार्रवाई कर पांच कारों को जब्त किया।

बसंत पंचमी पर नामदेव समाज की विशाल रथ शोभायात्रा से बसंती रंग से सराबोर हुई गुलाबी नगरी

विधायक स्वामी बालमुकुन्दगार्य महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना कर संत शिरोमणि नामदेव जी की प्रतिमा का पूजन कर रथयात्रा का किया शुभारंभ, हाथी घोड़ा मत्स्य विशाल लवाजमें के साथ मिस इंडिया ग्लैम की विनर्स ने किया माँ सरस्वती और राधा कृष्ण के रूप को साकार

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री नामदेव रथ यात्रा का भव्य आयोजन नामदेव दर्जी व छोपा समाज के संयुक्त तत्वाधान में बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर न केवल धार्मिक श्रद्धा का अभिव्यक्तिकरण हुआ, बल्कि सांस्कृतिक रंगों से भी यह आयोजन सजा। मीडिया समिति के राष्ट्रीय संयोजक रामाज के मोहित टेलर ने बताया कि आज नामदेव समाज की रथ यात्रा की शुरुआत हवामहल विधायक स्वामी श्री बालमुकुन्दगार्य और छोपा महासभा अध्यक्ष श्रीराम सोपरा, टांक महासभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलाल छोपा, श्रीमती अरुणा टांक, महामंत्री देवराज सागर, नामदेव टांक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर टेलर, पूर्व कुलपति मोहन लाल छोपा, पूर्व महासभा अध्यक्ष अनुराग रूनवाल, जिला जज सत्यनारायण टेलर, पूर्व महामंत्री गिरधारीलाल टेलर, पवन टांक, आर.डी. रोहिला, राजस्थान छोपा समाज अध्यक्ष अशोक गोठवाल, महामंत्री चंद्रदीप मेडतवाल, राजेंद्र सर्वा, नानागराम मायली, महेश झेड़ू, कमलेश टांक, सुरेश गोठवाल, बंटी थारवान, विक्रम बुला, नवरत्न वेदी, गोपाल नथैया, विपुल कटौडा,



संजय डीडवानिया, सत्यनारायण गाथा, मंजू टेलर, अरुणा टांक, सुनीता रुणवाल, ज्योति टांक, रीटा टांक, सुप्रिया छोपा, किरण नेनी, अंजू वर्मा सहित उपस्थित सैकड़ों नामदेव समाज बंधुओं ने महाभारती कर रथ यात्रा को जलेब चौक से खाना किया जलेब चौक से बड़ी चोपड़ से छोटी चोपड़ से गणगौरी बाजार से पुरानी बस्ती नामदेव मन्दिर में सम्पन्न हुई, इस विशाल नामदेव रथ यात्रा में नामदेव दर्जी एवं छोपा समाज के महिला और पुरुष के साथ बच्चों ने भी बड़ चड़ के हिस्सा लिया। रथ यात्रा में नवरत्न वेदी, गोपाल नथैया, विपुल कटौडा,

फोटो लंबी प्रतिमा थी, जिसका आगामी 8 मार्च को जापान में अनावरण किया जाएगा। यात्रा में शामिल हुए हाथी, घोड़े, ऊँट, मुख्य रथ, दो जीप रथ, चार बगियां, 20 बैंड वादकों की टीम और लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने यात्रा को और भी रंगीन बना दिया। संत श्री नामदेव जी के जीवन पर आधारित अनेक झांकियां यात्रा में प्रदर्शित की गईं, जिससे श्रद्धालुओं को उनके जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं का दर्शन हुआ। इतिहासिक इस रथ यात्रा के दौरान एक और खास पल तब आया जब *मिस इंडिया ग्लैम* की विनर्स ने माँ

सरस्वती और राधा-कृष्ण के रूप में सजीव दर्शन कराए। इन कन्याओं ने अपनी पारंपरिक पोशाक में इन देवी-देवताओं का रूप साकार किया, जिससे रथ यात्रा में धार्मिक भावनाओं का और भी सुंदर प्रस्तुति दी गई। उनके रूपों ने कार्यक्रम में एक अलग ही रंग भर और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। माँ सरस्वती के रूप को मिस इंडिया ग्लैम वर्ल्ड खाहिसा नायक, कृष्ण के रूप में मिस इंडिया ग्लैम आइकन 2025 रौनक कनोडिया एवं राधा रानी के रूप को मिस इंडिया ग्लैम 2024 सोम्या गुप्ता ने बखूबी साकार किया। नामदेव दर्जी और छोपा समाज की संस्थाओं ने समाज के सभी बंधुओं से अपील की थी कि वे इस धार्मिक आयोजन में भाग लें और अपनी उपस्थिति से इसे सफल बनाएं। यात्रा में जयपुर के अलावा सोकर, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, राँको, कोटा जैसे शहरों से भी नामदेव समाज के लोग शामिल हुए। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि समाज के बीच एकता और भाईचारे को मजबूत करने का भी एक अहम कदम था। आयोजकों ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए कठिन मेहनत की, जिससे यह कार्यक्रम इतिहास में यादगार बन गया।

फुलेरा जीआरपी ने 26.550 किलोग्राम डोडा चुरा का पाउडर बरामद कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

बढ़ता राजस्थान

फुलेरा (नि.स.)। जीआरपी पुलिस ने अवेध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास 26.550 किलोग्राम डोडा चुरा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 3,98,250 रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर, नरेंद्र सिंह चौधरी और अति. पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर, नरेश कुमार शर्मा के निदेशानुसार और राम अवतार, वृताधिकारी जीआरपी वृत्त अजमेर के मार्गदर्शन में की गई। फुलेरा जीआरपी थाना प्रभारी गुलजारीलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 1 फरवरी को रेलवे स्टेशन फुलेरा पर रायत की जा रही थी। टीम में स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 के पश्चिमी छोर यार्ड सी/डब्ल्यू स्टाफ इमटी के पास तीन युवकों को देखा, जो संदिग्ध रूप से एक-दूसरे से बात करते हुए अपने बैग फेंकने की



कोशिश कर रहे थे और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस की टीम ने उनकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ा। पूछताछ में, पकड़े गए आरोपियों ने अपनी पहचान दी। वे अमन कुमार (31 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 1, गुडवरान पड़ोवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा; सुलेमान (35 वर्ष), निवासी संतोक माजरा, जिला कैथल, हरियाणा; और रिंकी (30 वर्ष), निवासी संतोक माजरा, जिला कैथल, हरियाणा थे। पुलिस ने उनकी तलाशी ली और उनके पास से तीन

अलग-अलग बैगों में डोडा चुरा का पाउडर बरामद किया। अमन के बैग में 8.935 किलोग्राम, सुलेमान के बैग में 9.850 किलोग्राम और रिंकी के बैग में 8.650 किलोग्राम डोडा चुरा था, जिसका कुल वजन 26.550 किलोग्राम था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अवेध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस अभियान में पुलिस के अलावा कानि कृष्ण कुमार, कानि निम्बाराव, ओमप्रकाश और रामकिशोर एसआई भी शामिल थे।

घर से जेवरत लेकर प्रेमी संग भागी विवाहिता

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। चित्रकूट थाना इलाके में एक विवाहिता घर से जेवरत-नगदी लेकर प्रेमी के संग भाग निकली। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चित्रकूट नगर के रहने वाले युवक ने मामला दर्ज करवाया कि 29 जनवरी को

सुबह अपनी जॉब पर चला गया। देर शाम वापस आने पर घर पर पत्नी नहीं मिली। मोबाइल पर कॉटेक्ट की कोशिश करने पर स्विच ऑफ मिला। रिश्तेदार-परिचितों के यहां पर काफी दूढ़ने के बाद भी पता नहीं चला। दो दिन तक अपने स्तर पर वह दूढ़ता रहा। अलमारी में रखे 10 हजार रुपए और जेवरत भी गायब मिले।

नागरिक सुरक्षा विकास परिषद का प्रदेश स्तरीय सेमिनार आयोजित



बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। नागरिक सुरक्षा विकास परिषद का प्रदेश स्तरीय सेमिनार रविवार को स्वेज फॉर्म, सोडाला स्थित दुर्गा मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार मीना ने बताया की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फूलचंद चन्द चौधरी पूर्व (जे.एस.ओ.) रहे। सेमिनार में प्रदेश के समस्त जिलों से पधारे नागरिक सुरक्षा के वार्डन सेवा और स्वयंसेवकों के हितों एवं उखान की चर्चा की गई, और उनकी समस्या को शीघ्र निस्तारण करने की योजना बनाई। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव सावन कुमार सुखाड़िया, कोषाध्यक्ष रामगोपाल बडगुजर, सुरेश मोहन जोशी, कमलेश राठी, सुशील प्रजापत, सुनील कुमार शर्मा, संजय तिवारी, मनमोहन सैनी, महेंद्र कुमार सेवदा, नवल किशोर शर्मा, कैलाश चंद मीणा सौकर मंगल चंद प्रजापत बीकानेर, नासिर खान अलवर, राहुल शर्मा, राजेश मीणा सर्वाइवाधोपुर, सीताराम बाइमेर, नरेंद्र नागौर, अश्वरार करौली, रामस्वरूप मीणा, देवीलाल कारसोटिया, राजेंद्र बातोतिया सहित पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुरसरा तेजाजी मन्दिर से ज्योत लेकर सुरसिंहपुरा पहुंचे धर्मप्रेमी

बढ़ता राजस्थान

फुलेरा (नि.स.)। समीपवती ग्राम श्योसिंहपुरा में आयोजित हुए तेजाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान काफी तादात में धर्मप्रेमी सुरसरा तेजाजी धाम से ज्योत लेकर श्योसिंहपुरा तेजाजी के मंदिर पहुंचे। जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि मुकेश यादव ने बताया कि इस दौरान ज्योत लाने का संपूर्ण खर्चा 41 हजार रुपये मूलचंद पणिहार व चौधमल पणिहार के द्वारा किया गया।

टॉक में फिर बदला मौसम

कोहरा छाया, शीतलहर से लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित

बढ़ता राजस्थान

टॉक (का.स.)। टॉक में बार फिर रविवार को मौसम बदल गया। करीब 10 दिन बाद सुबह फिर से धुंध और कोहरा छाया। साथ ही शीतलहर भी चल रही है। इससे लोगों को दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खासकर के वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उधर एक बार फिर मौसम बदलने से गलन और सर्दी का असर बढ़ गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे के मुकाबले चार डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार बन गए हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। वहीं न्यूनतम तापमान में ज्यादा फर्क नहीं आया है। वह पिछले 24 घंटे की तरह 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अब मौसम बदलने से आने वाले समय में न्यूनतम तापमान के भी गिरने के आसार हैं।

दस दिन से सामान्य बना हुआ मौसम

टॉक जिले में करीब 10 दिन मौसम सामान्य बना हुआ था। अधिकतम तापमान एक्कर 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। सूर्य भी दिन के समय निकला रहता था। ऐसे में लोगों को सर्दी, कोहरा और शीतलहर से काफी राहत मिली हुई थी, लेकिन रविवार सुबह मौसम बदल गया। लोगों को उठते ही धुंध और कोहरा छाया नजर आया। शीतलहर भी चली। इसके चलते लोग घरों से कम ही निकले। कई जगह अलाव भी जलाए।

पश्चिम विश्वोभ सक्रिय होने से बदला मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विश्वोभ सक्रिय होने से जिले में भी बारिश होने की संभावना है। इससे बाद फिर से तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। अभी जिले में बारिश तो नहीं हुई लेकिन यकायक मौसम बदल गया और लोग सर्दी और शीतलहर के असर से गुजर रहे हैं।

विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। सांगानेर सदर थाना इलाके में एक विवाहिता ने चुनौती का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। ढाई महीने पहले हुई शादी के बाद वह करीब 15 दिन से पति के साथ रह रही थी। पुलिस ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद शव परीक्षण को सौंप दिया। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने देहज हत्या का मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी अनिल जैन ने बताया कि मृतका कोमल देवी (19) पुत्री संतोष कुमार फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। 17 नवम्बर 2024 को सम्मेलन में कोमल की शादी आकाश निवासी गोविंदपुरा जेडीए कॉलोनी सांगानेर सदर से हुई थी। जयपुर में छगाई फेक्ट्री में आकाश जाँव करता है। इसके बाद कोमल ने अपने कमरे में चुनौती का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घर पहुँचे पति आकाश को कोमल फंदे से लटकती मिली। उसने आस-पड़ोसियों की मदद से फंदे से कोमल को नीचे उतरकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुँचाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कोमल को मृत घोषित कर दिया। मेडिकल सूचना पर हॉस्पिटल पहुँची सांगानेर सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मुदाधर में रखवाया। पुलिस ने मृतका के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इकार किया है। इस संबंध में सांगानेर सदर थाने में मृतका कोमल के पिता संतोष ने देहज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि शादी के बाद कोमल पीहर में ही रहकर काम कर रही थी। 6 जनवरी को पति आकाश परीजनो को बिना बताए बेटी कोमल को अपने साथ जयपुर ले आया। पीछे-पीछे दूढ़ते हुए आने पर आकाश के परिजनो ने शादी होने का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया। पिछले 15 दिन से ही कोमल अपने पति के साथ रह रही थी। आरोप है कि देहज के लिए कोमल की हत्या की गई है। पुलिस ने देहज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चालक से मारपीट कर नगदी-ऑटो छीन ले गए तीन बदमाश

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। जयसिंहपुरा थाना इलाके में तीन बदमाशों चालक से मारपीट कर नगदी और ऑटो छीनकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार मूलतः भरतपुर निवासी रोहितारा वर्तमान में जगतपुरा में किराए से रह रही है। वह ऑटो लेकर 30 जनवरी को मधुसूदासपुरा निगम कचरा प्लांट के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान प्लांट के पास खड़े तीन युवकों ने रोका और उसके साथ मारपीट कर 3 से 4 हजार रुपए, एटीएम कार्ड और ऑटो छीनकर ले गए। किसी तरह पीड़ित थाने पहुँचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

57.98 प्रतिशत ने आरएएस अफसर बनने के लिए दी परीक्षा:दिन भर रही टॉक शहर में चहल-पहल, रोडवेज बस स्टैंड पर लगी कतारें

बढ़ता राजस्थान

टॉक (का.स.)। जिला मुख्यालय पर रविवार दोपहर को आरएएस प्री परीक्षा शांति और पारदर्शिता पूर्वक हुई। इसमें 57.98 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने आरएएस अफसर बनने के लिए भाग्य आजमाया। यह परीक्षा 28 परीक्षा केंद्रों पर हुई। छरू रामरतन सौकरिया ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 रविवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हुई। इसमें परीक्षार्थियों एक घंटे पहले प्रवेश दे दिया गया था। परीक्षा के लिए टॉक जिले में 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में जिले में कुल 11 हजार 153 परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन था। इसमें से छह हजार 466 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं चार हजार 687 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह जिले में 57.98 प्रतिशत परीक्षार्थी उपस्थित हुए। परीक्षा पूरी तरह से बिना किसी व्यवधान के हुई। परीक्षा के लिए पुलिस का पर्याप्त जासा रहा। वहीं वीडियोग्राफ़ी भी कराई गई।

बस स्टैंड पर शाम तक लगी रही भीड़

दोपहर 3 बजे आरएएस प्री परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की परीक्षा सेंट्रों से लेकर बाजार, बस स्टैंड आदि स्थानों पर भारी भीड़ रही। शाम 6 बजे तक एक दर्जन अतिरिक्त रोडवेज बसे लगाकर परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया।

एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

बढ़ता राजस्थान

सवाईमाधोपुर (राकेश शर्मा)। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 2024 के दौरान जिला कलक्टर शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ठाकुर मदन सिंह कॉलेज, न्यू महर्षि विद्या मंदिर, टाडानी टॉटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।



बढ़ता राजस्थान

सवाईमाधोपुर (राकेश शर्मा)। हाल ही प्रदेश में तबादला उद्योग में कई अधिकारियों को इधर-उधर किया गया लेकिन मगर, सवाईमाधोपुर नगरपरिषद को अभी भी स्थाई आयुक्त नहीं मिला है। ऐसे में फिर से नगरपरिषद प्रशासन कार्यवाहक आयुक्त के भरोसे है। इससे शहर का विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़ा है। नगर निकाय के प्रावधानों व हाइकोर्ट के निर्देशों की बात करें तो नगर निकाय में आयुक्त के पद पर 15 दिन से अधिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद भी यदि आवश्यक हो तो अधिकतम 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाईमाधोपुर नगरपरिषद में करीब ढाई साल से स्थाई आयुक्त नहीं लगाया गया है। इन दिनों नगरपरिषद आयुक्त का पद कार्यवाहकों के भरोसे ही चल रहा है।



फिर छुट्टी पर गई कार्यवाहक आयुक्त : जिला मुख्यालय पर नगरपरिषद में कार्यवाहक आयुक्त का भी अजीबोगरीब खेल चल रहा है। हालात यह है कार्यवाहक आयुक्त भी पिछले दो से तीन माह में कई बार लंबी-लंबी छुट्टी

जा चुकी है। ऐसे में यह पद कार्यवाहक आयुक्त के किसी अधिकारी को कार्यवाहक के रूप में दे दिया जाता है। वर्तमान में भी कार्यवाहक आयुक्त नीरूसिंह फिर से 15 दिन के अवकाश पर चली गई है। ऐसे में नगरपरिषद में

अधिशासी अभियंता नरसी मोणा को फिर से कार्यवाहक आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है।

27 सितम्बर 2022 के बाद से ही पद रिक्त : नगरपरिषद में 27 सितम्बर 2022 के बाद कोई अस्थाई आयुक्त नहीं

आया है। इससे पहले नवीन भारद्वाज को ही स्थाई आयुक्त के पद पर लगाया था लेकिन इसके बाद आए अधिशासी अभियंता होतीलाल मीना, सहायक कलक्टर यशवंत शंकर, अधिशासी अभियंता परकाश मीना व सचिव फतेहसिंह मीणा को कार्यवाहक आयुक्त के तौर पर लगाया है। वहीं दो माह पहले तहसीलदार नीरू सिंह को भी अस्थाई रूप से आयुक्त को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। सवाईमाधोपुर नगरपरिषद के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि 60 वाडों वाले निकाय में पिछले ढाई साल से स्थाई आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उधर, बार-बार कार्यवाहक आयुक्त लगाए जाने से डेढ़ लाख की आबादी वाले नगरपरिषद क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं। स्थाई आयुक्त नहीं होने से सफाई और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं और जनसुविधाएं तक नहीं हो पा रही है।

जारी की सूची, अभी तक नहीं किया कोई निर्णय रणथंभौर में नए केंटर लगाने की कवायद

बढ़ता राजस्थान

सवाईमाधोपुर (राकेश शर्मा)। रणथंभौर बाघ परियोजना में पर्यटकों के पार्क भ्रमण के लिए नए वाहन लगाने की प्रक्रिया वन विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। हालांकि वन विभाग की ओर से पहले चरण में केवल पुराने केंटरों को बदला जाएगा और इनके स्थान पर नए केंटर लगाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इच्छुक आवेदकों की सूची भी जारी की गई है। इस संबंध में वर्तमान में विभाग की ओर से रणथंभौर बाघ परियोजना के विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में अब रणथंभौर में जल्द ही आगामी सीजन में नए पर्यटन वाहन देखने को मिल सकते हैं।



केवल केंटरों के लिए जारी किए हैं आदेश : वन अधिकारियों ने बताया कि आगामी सत्र को लेकर फिलहाल विभाग की ओर से केवल केंटर पर्यटन वाहनों को बदलने को लेकर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें विभाग की ओर से रणथंभौर बाघ परियोजना के

आसपास बसे गांवों के विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से 12 आवेदकों का चयन कर लिया गया है और तीन प्रतीक्षा सूची में हैं। हालांकि यह केंटर स्टाफ के उपयोग में आएंगे। जिप्सी का नहीं मिल रहा कोई विकल्प : वन विभाग की

ओर से अब तक जिप्सी को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। इस संबंध में वन अधिकारियों का कहना है कि 2026 तक गाइडलाइन के अनुसार रणथंभौर में जिप्सियों का संचालन किया जा सकता है और वर्तमान में जिप्सी का कोई पुता विकल्प वन विभाग को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में विभागीय अधिकारी अभी इंतजार कर रहे हैं।

कुछ वाहन किए चिन्हित : फिलहाल केवल केंटर के संबंध में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। जिप्सी के विकल्प की तलाश की जा रही है। कुछ वाहनों को चिन्हित किया गया है लेकिन अभी कुछ फाइल नहीं है। प्रमोद कुमार धाकड़, उपवन संरक्षक (पर्यटन), रणथंभौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।

पति-पत्नी को तेज रफ्तार कार ने कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, शोक में धार्मिक कार्यक्रम स्थगित

बढ़ता राजस्थान

बूंदी/कोटा (विनोद गौड़)। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना इलाके में पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति-पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में गम्भीर घायल हुए पति-पत्नी को एम्बुलेंस से कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इनके शवों को हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है। देईखेड़ा थाना पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। मृतक के



रिश्तेदार घनश्याम केवट ने बताया कि देवनारायण जयंती पर बहन बेटीयों को कपड़े देते थे। इसलिए महावीर केवट और उनकी पत्नी

सुनीता केवट घाट का बराना इलाके से लाखेरी कपड़े खरीदने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पापड़ी इलाके के पास किसी कार

चालक ने उनकी मोटर साइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे दोनों गम्भीर घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस से कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। देईखेड़ा थाना पुलिस शवों का पोस्टमॉर्टम करवाएगी। पूर्णाहुति कार्यक्रम स्थगित : बूंदी जिले के घाट का बराना इलाके 4 फरवरी को देवनारायण जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज की ओर से पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। मगर हादसे में हुई पति-पत्नी की इस मौत के बाद इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया है।

50 लाख रुपए की साइबर ठगी का आरोपी दबोचा

बढ़ता राजस्थान

सवाईमाधोपुर (राकेश शर्मा)। जिले के बौली क्षेत्र में में ऑपरेशन साइबर शोल्ड के तहत बौली थाना पुलिस ने पीपलवाड़ा गांव से साइबर ठगी के मु्य आरोपी सिकंदर मोणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी लगभग 20 दिन से फरार चल रहा था। थानाधिकारी राधारमन गुप्ता ने बताया कि 10 जनवरी को साइबर हेल्पलाइन पोर्टल 1930 से प्राप्त शिकायत के आधार पर एसआई रूपसिंह व पुलिस टीम ने आरोपी सिकंदर पुत्र राम खिल्लाड़ी मोणा निवासी बहनोली के खिलाफ लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिशा दी थी।



विभिन्न बैंकों के नौ एटीएम कार्ड, बैंक डायरियां, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चेक बुक्स, आधार, कार्ड, पैन कार्ड, आईफोन मोबाइल

बॉक्स व कई मोबाइलस के बिल सहित अन्य सामग्रियां जब्त की थीं। साइबर टीम सवाई माधोपुर के विशेष सहयोग से बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी व उसके परिवार जनों के खातों में अब तक करीब 50 लाख रुपए से अधिक के ट्रान्जेक्शन की पुष्टि की जा चुकी है। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी सिकंदर फरार चल रहा था। एसएचओ राधारमन गुप्ता के निर्देशन में हेड कांस्टेबल धर्मैद, कांस्टेबल मुकेश, संदीप व शीशराम को एक टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर उसके पास से साइबर ठगी में काम में लिया जा रहा मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस अनुसंधान में जुटी है।

रिद्धि ने किया कछुए का शिकार

बढ़ता राजस्थान

सवाईमाधोपुर (राकेश शर्मा)। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को यहां की वाइल्डलाइफ का रोमांचक अनुभव होता है। हर साल लाखों पर्यटक देश-विदेश से रणथंभौर का भ्रमण करते हैं। शनिवार शाम को रणथंभौर भ्रमण पर गए पर्यटकों को एक रोमांचक दृश्य देखने को मिला। इस दौरान पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों ने बाघिन रिद्धि को एक कछुए का शिकार करते हुए लाइव देखा। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम को पर्यटक जोन नंबर तीन में टाइगर सफारी पर गए थे। यहां उन्हें लोक एरिया में बाघिन रिद्धि दिखी बाघिन ने कछुए को शिकार बना लिया, जब वह लोक किनारे बैठा था। कछुआ खतरे को भांपकर अपने शरीर की खोल में छिप गया और शांत रहा। बाघिन ने पहले कछुए को



निहारा, फिर सूंघा और अंततः उसे शिकार बना लिया। बाघिन ने कछुए का शिकार झाड़ियों में ले जाकर किया। इस दृश्य को

देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए और उन्होंने इस वाक्ये को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।

समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के विकास में निभाएं भागेदारी-सियाराम मौगा



बढ़ता राजस्थान

निवाड़ी (का.स.)। अलियाबाद मोड़ पर स्थित अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज छत्रावास में रविवार को अध्यक्ष सियाराम भौंगा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष भौंगा ने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के विकास में भागेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके समाज, संस्कार एवं शिक्षा से होती है। मजबूत समाज के निर्माण के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। समिति के मीडिया प्रभारी लक्ष्मीचन्द शर्मा ने बताया कि बैठक में गत माह के आय-व्यय पर विचार विमर्श किया। आगामी सत्र 2025-26 में छत्रावास में नवीन विद्यालय के शुभारंभ करने की तैयारियों को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई एवं वार्षिक एजेंडा तैयार किया गया। इस अवसर पर संरक्षक बृजमोहन शर्मा, मंत्री कैलाश जयसिंहपुरा, उपाध्यक्ष सीताराम बेद, कोषाध्यक्ष सुरेश चौरासा, शंभू चौधरी, कैलाश जयसिंहपुरा, दीनदयाल शर्मा, रमेश बोहरा, दीपक शर्मा, नितेश शर्मा, दशरथ सरसिण्या, संजय शर्मा, शंभू बापलावत एवं मदन शर्मा बहकवा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

दो ट्रकों में हुई भिड़ंत, दो जने घायल, दोनों टॉक रैफर

बढ़ता राजस्थान

निवाड़ी (का.स.)। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर शनिवार की रात करीब 11 बजे एनबीसी फेक्ट्री के सामने एक बजरी के डंपर ने आगे चल रहे हैं। ट्रैलर को टक्कर मार दी। भिड़ंत से डंपर में सवार दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाना प्रभारी हीरालाल वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर टॉक से जयपुर की ओर से एक ट्रैला एवं बजरी से भरा डंपर आगे पीछे चल रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे एनबीसी फेक्ट्री गुंसी के सामने बजरी से भरे डंपर ने आगे चल रहे ट्रैले के पीछे से टक्कर मार दी। जिससे ट्रैले की बाँड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भरी हुई टाइल्स एवं पत्तल के बंडल सड़क मार्ग पर बिखर गए। डंपर ट्रैले से भिड़कर सड़क किनारे बबूलों के पेड़ों में जाकर रुक गया। भिड़ंत में डंपर में सवार प्रधान पुत्र मोतीलाल गुर्जर निवासी सोहेला व खेमराज पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी नया टीला झिराना गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को राहगीरों एवं अन्य ट्रक चालकों ने राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को टॉक सआदात अस्पताल में रैफर कर दिया।



आरएएस प्री परीक्षा ड्यूटी में अनुपस्थित 140 वीक्षकों को नोटिस: एडीएम ने नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

बढ़ता राजस्थान

टॉक (का.स.)। टॉक-आरएएस प्री परीक्षा की ड्यूटी में लगाए गए 140 वीक्षकों को अनुपस्थित रहने पर एडीएम राम रतन सौकरिया ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनसे तीन दिन में जवाब मांगा है। जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ तो लापरवाह वीक्षकों के खिलाफ सीसीए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। डीएम राम रतन सौकरिया ने बताया कि रविवार को आरएएस प्री परीक्षा के लिए रिजर्व में 140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी। इसके लिए वीक्षकों को 30 जनवरी से आरक्षित दल में नियुक्त किया था। इन्हें एक फरवरी को दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना में नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति देने के बाद इन्हें परीक्षा केन्द्र में ड्यूटी लगाने के लिए मौखिक और मोबाइल से बात कर अवगत कराया, लेकिन ये ड्यूटी करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। यही नहीं इनको अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टॉक कृष्ण गोपाल शर्मा ने भी व्यक्तिगत रूप से ड्यूटी करने के लिए बुलाया, लेकिन ये वीक्षक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इनको यह लापरवाही उच्चधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानी है। साथ ही परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही है। इसलिए इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कन्या की शादी के लिए रोटरी चैरिटेबल प्रन्यास की ओर से की गई मदद

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। बसंत पंचमी के दिन लड़की की शादी में भोजन के 15000 रुपये तथा 11000 रुपए कन्यादान का सहयोग किया गया व एक दीवार घड़ी रोटरी चैरिटेबल प्रन्यास की उपहार यादगार के रूप में भेंट की गई। रोटरीयन वैष्णवजन तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे अर्थात असहाय की सहायता करना सहाय व्यक्ति का परम धर्म है। जानकारी में आने पर एक असहाय हरिजन बेटी की शादी में भोजन तथा कन्यादान देने का आह्वान किया गया था जिस पर 15 सदस्यों ने 1100 प्रत्येक ने देकर असहाय जरूरतमंद के चेहरे पर खुशी प्राप्त करने का पुनीत



कार्य रोटरी चैरिटेबल प्रन्यास संस्थान अलवर के सदस्यों एवं संस्थान द्वारा किया गया। रोटरी चैरिटेबल प्रन्यास संस्थान के सचिव राजेश सिंघल, बोर्ड सदस्य रोट राजेश खंडेलवाल तथा संस्थान के टेक्निकल सुपरवाइजर कुमुद गुप्ता व पीआरओ हजारी लाल मोणन ने अखेपुरा मोहल्ले में परिवार के घर जाकर यह कार्य सम्पन्न किया गया। इस कार्य में सभी सहयोग करने वाले सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

रामगोपाल जी की याद में मनाया गया प्रेरणा दिवस ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं : वेद बनवारी लाल

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। रामगोपाल जी के ब्रह्मलीन होने पर उनकी याद में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। श्री राम गोपाल जी का जन्म 1944 में हुआ और 1994 में उन्हें इस निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तभी से वह संपूर्ण जीवन सद्गुरु के आदेश अनुसार जीते हुए पूरे मर्यादा में रहते हुए बिताया और यही नहीं अपने पूरे परिवार को भी उन्होंने सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा। अंतिम सांस तक उन्होंने सद्गुरु के दर पर निभाई और चलते फिरते इस निराकार में लीन हुए। इस अवसर पर रिश्तेदारों के अलावा आसपास की सभी ब्रांचो

से मुख महात्मा संयोजक तथा संगत के सदस्य भी इस प्रेरणा दिवस समारोह में सम्मिलित हुए और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की ही बात की। पावटा से पधारे हुए जोनल प्रभारी वेद बनवारी लाल जी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए आए हुए संत महात्माओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा कि वह तो सद्गुरु के दर पर निभा कर चले गए अब हम सब की बारी है कि हम भी सद्गुरु के बताए हुए ब्रह्म ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जिएं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं अतः मानव शरीर रहते इस



निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी करके अपने जीवन को सफल बनाएं। रामगोपाल जीभरा पूरा परिवार छोड़कर इस निराकार में लीन हुए उनके दो सुपुत्र श्री बालकिशन जी एवं हरि कृष्ण जी आहुजा आज के युग में भाइयों की एक मिसाल है जो पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं।

मशीन की कीमत से अधिक लोगों की प्रसन्नता : शेखावत

बढ़ता राजस्थान
बानसूर (धीरज मोर्य)। नगर पालिका क्षेत्र स्थित उपजिला अस्पताल में बसंत पंचमी के दिन सोनोग्राफी मशीन व आपातकालीन सामान्य वार्ड का उदघाटन हुआ। इस मौके पर बोलते हुए विधायक देवीसिंह शेखावत ने कहा कि मशीन की कीमत से अधिक मुझे आमजन की खुशी ज्यादा नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहाँ भी आमजन को मूलभूत आवश्यकता है उपलब्ध करवाई जाए। इसी का यह नतीजा है कि उपजिला अस्पताल में यह सुविधा आज से शुरू हो गई शेखावत ने कहा कि कम समय के लिए 1000 रुपए की मशीनों के लिए 10बैड का आपातकालीन सामान्य वार्ड बनाया गया है। जो जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घर जा सकेंगे। शेखावत ने कहा कि पहले

विधायक को दिल्ली जयपुर ढूँढना पड़ता था मेरा अधिकतर समय विधानसभा क्षेत्र में ही गुजरता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चिकित्सा सेवा में और भी विस्तार होने जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में बानसूर ने प्रगति कर ली है। आने वाले 2027 तक राजस्थान आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि देश-विदेश को बिजली निर्यात करने वाला प्रदेश बन जाएगा। शेखावत ने कहा कि करीब 60 से 70 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनने वाली हैं, जिनमें कुछ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है शेष का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं घोषणा में विश्वास कम रखता हूँ काम में ज्यादा। आपको आने वाले समय में बहुत काम देखने को मिलेंगे। इस मौके पर उपजिला अस्पताल प्रभारी डॉ राजेश यादव के नेतृत्व में उपजिला अस्पताल परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस

बानसूर बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है



मौके पर तहसीलदार गजेन्द्रसिंह राठौड़, थानाधिकारी सुरेन्द्रमलिक, डॉ शशिकांत बोहरा, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, वसुंधरा राजे समर्थक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष व राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एवं भाजपाई बृजमोहन शर्मा, नवीन गोयल, सतीश गोयल, योगेश सोनी, एडवोकेट नरेन्द्र चौधरी, मेघवाल विकास समिति के अध्यक्ष कैप्टन अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त अध्यापक चेताराम मेघवाल हरसौरा, अभिमन्यू चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक बस्तीराम यादव, भागचंद यादव, सतीश गुर्जर, डॉ दयानन्द, राखी गुप्ता, हेमलता सिसोदिया, मंजू शर्मा, सभी मण्डलों के वर्तमान व निवर्तमान अध्यक्षों सहित आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी व एलोपैथिक स्टॉफ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

गंदगी फैलाने पर 9 ठेली और खोमचे वालों से निगम ने वसूला 4600 का चालान

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। शहर की सफाई सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जोन नंबर दो के सफाई निरीक्षक राकेश शर्मा ने रविवार को नेहरू गार्डन और आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर 9 ठेली और खोमचे वालों का चालान किया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने 4600 का जुर्माना वसूला। साथ ही गंदगी फैलाने वालों को टीम की ओर से हत्याघत दी गई की सभी अपने प्रतिष्ठानों पर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखें और सफाई व्यवस्था में



सहयोग करें। इस दौरान नगर निगम आयुक्त जितेन्द्र सिंह नरुका ने कहा कि शहर में लगातार आमजन और व्यापारियों से समझाइश की जा रही है ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि पॉलिथीन का उपयोग करने से बचे और खरीदारी के लिए जाते समय कपड़े अथवा जूट के थैले का उपयोग करें।

राजदीप एकेडमी में मनाया गया बसंतोत्सव

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। बसंत पंचमी के पवन अवसर पर रविवार को नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी स्कूल में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बसंत पंचमी मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान कुलदीप शर्मा ने मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ए हल्दी का तिलक लगाकर पीले फूलों की माला अर्पित कर कदली फल का प्रसाद का भोग लगाया। बच्चों ने सामूहिक वंदना की। अतिथि के रूप में पधारे मातादीन शर्मा ने इस



उत्सव के महत्व के बारे में जानकारी दी। सभी बच्चों को हल्दी का तिलक लगाया गया व सभी ने माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सद्बुद्धि और विवेक की प्रार्थना की।

बसंत पंचमी पर गोविंदगढ़ में रक्तदान शिविर : खंडेलवाल वैश्य समाज की ओर से हुआ आयोजन, 74 लोगों ने किया ब्लड डोनेट

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। गोविंदगढ़ कस्बे में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर खंडेलवाल वैश्य समाज समिति द्वारा तृतीय रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस शिविर में रामगढ़ के विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि निलेश खंडेलवाल और प्रधान गोपाल

चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संत सुंदर दास जी महाराज और गणेश जी महाराज के पूजन-वंदन से हुई। शिविर में कुल 74 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा की। समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद नसवारी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है और 24 घंटे में रक्त की पूर्ति स्वतः हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष उनकी संस्था ने जरूरतमंद लोगों को ब्लड बैंक से 126 यूनिट रक्त उपलब्ध करवाया था। रक्त संग्रहण के लिए अलवर के राजकीय चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम और अलवर ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही। समाज की ओर से दोनों टीमों का तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

पांच दिवसीय जोनल खेल उत्सव का आयोजन कराना खेलों को बढ़ावा देना स्वास्थ्य कर्मियों में खेल भावना विकसित करना है : डीन प्रो. डॉ. असीम दास

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। खेलों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य कर्मियों में खेल भावना विकसित करने के उद्देश्य से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अलवर दवारा खेले ईडिया मुहिम के तहत 3 से 7 फरवरी तक पांच दिवसीय जोनल खेल उत्सव का आयोजन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं लिएट कॉलेज परिसर में संयुक्त रूप से किया जाएगा। जहां कर्मचारी राज्य बोमा निगम (ईएसआईसी) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एमआईए अलवर के द्वारा का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में ग्यारह राज्यों के ईएसआईसी संस्थानों से 551 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें डॉक्टर, अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर के डीन प्रोफेसर डॉ. असीम दास ने बताया कि इस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मीट में राजस्थान, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र गोवा गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य में ईएसआईसी के विभिन्न क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय कार्यालयों शाखा कार्यालयों

अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों की कुल 11 टीमों आना लेगी इस दौरान खेल उत्सव में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज एवं कैरम बोर्ड जैसे खेलों स ईएसआईसी पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर के डीन प्रोफेसर डॉ. असीम दास व श्रीमती अंभिलाषा झा अध्यक्ष, स्पोर्ट्स बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र) एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुंबई (महाराष्ट्र) ने संबोधित किया है। उन्होंने बताया इसमें गोवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ व कई स्थानों से टीम आ रही है। उन्होंने बताया इस परिसर के अंदर कई खेल खेले जाएंगे और 7 तारीख को इसका समापन किया जाएगा तथा वहीं खेलों के बारे में उन्होंने कई जानकारीयां दी। उन्होंने बताया कि आउटडोर खेलों का आयोजन एलआईटी कॉलेज परिसर, चिकानी, अलवर में किया जाएगा। इनडोर खेलों का आयोजन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एमआईए, अलवर के इनडोर

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं लिएट कॉलेज परिसर में संयुक्त रूप से होगा खेलों का आयोजन



स्टेडियम में संपन्न होगा। इस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मीट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में कार्यरत ईएसआईसी के विभिन्न क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों की कुल 11. टीमों भाग लेगी। इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज एवं कैरम बोर्ड जैसे खेलों में ईएसआईसी पश्चिम क्षेत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

आर ए एस एजाम देने से चूके : 11 बजे के बाद जीडी कॉलेज से मायूस लौटे, देसूला में महिला अभ्यर्थी मोबाइल अंदर ले गईं



बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। आर ए एस प्री के एजाम में रविवार को काफी अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गए। वे 11 बजे के बाद कुछ मिनिट बाद सेंटर पर पहुंचे। जीडी कॉलेज में करीब 20 अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। जो समय से देर से आए। इसी तरह अन्य सेंटर पर भी ऐसा देखने को मिला। वहीं अलवर के निकट देसूला के परीक्षा केंद्र पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी ने अपनी बेटी को सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाकर थमा दिया। जिसका दूसरे अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया। विरोध के बाद महिला अभ्यर्थी को बिना एजाम

दिए बाहर करना पड़ा। ताकि समय पर एजाम शुरू हो सके। अलवर में 28 हजार में से 14 हजार अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। राजगढ़ से आए देवीलाल ने बताया कि उसका यह चौथे अटेम्प्ट था। लेकिन 2 मिनिट देरी से आने के कारण एजाम में प्रवेश नहीं कर सका। एजाम का समय 12 से 3 बजे के बीच था। जिसके लिए एजाम सेंटर पर 11 बजे से पहले पहुंचना था। देर से आने पर प्रवेश नहीं दिया गया। आरएएस एजाम के कारण एक घंटे पहले परीक्षार्थी एजाम सेंटर पर पहुंचे। जिसका दूसरे अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया। विरोध के बाद साइबर कैफे व ई मित्र परीक्षा के समय बंद रखे जाएंगे। 16 फ्लाइंग दल बराबर निगरानी रखेंगे। अलवर में 93 एजाम सेंटर पर 28 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। डीएम ने बताया कि आर ए एस के एजाम में अलवर में 28 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। एक दिन पहले ही एजाम सेंटर के अंदर व बाहर की तैयारी को देखा गया। एजाम के दिन ई-मित्र कोचिंग, साइबर कैफे बंद कराए गए हैं। कुल 28 हजार में से करीब 26 हजार अभ्यर्थी अलवर के हैं। फिर भी बसों की सुविधा है। बस स्टैंड व अलवर जंक्शन पर हेल्प डेस्क लगाई है। 16 फ्लाइंग स्क्वाड है। एजाम एक ही पारी 12 से 3 बजे का होगा। समय से एक घंटे पहले अभ्यर्थियों को सेंटर पर पहुंचना होगा।

जो क्षेत्र डीजर्व करता है वह ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर होगा : शेखावत किसी को हटाना जोड़ना जनता की सोच पर निर्भर करता है, प्रयास यह रहेगा कि किसी को असुविधा न हो

बढ़ता राजस्थान
बानसूर (धीरज मोर्य)। पंचायत समिति के सभागार में विधायक देवीसिंह शेखावत ने अधिकारियों की क्लास लेते हुए विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक देवीसिंह शेखावत ने कहा कि नए जिलों की स्थापना से पंचायत राज चुनाव प्रभावित हुए हैं राज्य सरकार की मंशा है कि भारत सरकार की घोषणा एक देश एक चुनाव उसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है पंचायत राज चुनाव समय पर होते पर सीमांकन को लेकर गतिरोध बना हुआ था। जितना हो सकेगा जनहित में सभी लोगों की भावनाओं को कद्र हो। कोई भी जन अपने क्षेत्र को लेकर प्रभावित न हो। इस मौके पर हरसौरा के नागरिकों ने हरसौरा को तहसील, नगर पालिका, पंचायत समिति

मुख्यालय बनाने के लिए पूर्व उपसरपंच व पंचायत समिति सदस्य राम भित्तल के नेतृत्व में जापन भी सौंपा। वहीं नई ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर फतेहपुर, ढाकला, चैनपुरा, आलमपुर, नारोल, बिलाड, खरवा, मोरोड़ी, बासकरणावत, मंडीका बसई, धौरपुर, छिपारी, मधुवा, कोठीयां के नागरिकों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग की। उधर ग्राम पंचायत बाबरिया सरपंच प्रतिनिधि रोतास गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने बाबरिया विद्यालय के खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। इस मौके पर डॉ शशिकांत बोहरा, रामानंद दीक्षित, विधुत विभाग के सहायक अभियंता प्रशांत शर्मा, वृत्ताधिकारी दशरथसिंह, तहसीलदार गजेन्द्रसिंह, जलदाय विभाग के सिद्धार्थ कुमार, सहायक अभियंता विजय मोरवाल,

हरसौरा के नागरिकों ने हरसौरा को तहसील, नगर पालिका व पंचायत समिति का दर्जा दिलाने के लिए जापन भी सौंपा



ओमपाल सिंह चतरपुरा, ऋषि चौहान चैनपुरा, सहित काफी संख्या में अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व विधानसभा क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

अलवर सांसद खेल उत्सव के तीसरे चरण में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान मैदानों में दिखाई दिया संघर्षशील मुकाबला

बढ़ता राजस्थान
अलवर (का.स.)। वी-शक्ति के बैनर अंतर्गत अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 'खेलो इंडिया' की प्रेरणा से अलवर संसदीय क्षेत्र में आयोजित रहे अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत रविवार को राजगढ़ क्रिकेट के खेल मैदान में क्वार्टर फाइनल मैच का

पहला मुकाबला महिला टीम राजगढ़ और रामगढ़ के बीच हुआ। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि राजगढ़ टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। रामगढ़ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात ओवर में अपने 4 विकेट खोकर 54 रन बनाए। जबकि, राजगढ़ टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और जीत दर्ज की। इस

मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए सपना को 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया। वहीं, दूसरा मुकाबला पुरुष टीम राजगढ़ और रामगढ़ के बीच हुआ। इस मुकाबले में राजगढ़ टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 12 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जबकि, रामगढ़ टीम 12 ओवर में 9 विकेट गंवाकर केवल 105 रन ही बना पाई

और मुकाबला हार गई। इस मुकाबले में अंकित ने शानदार बल्लेबाजी की और अल्फाज ने अच्छी गेंदबाजी कर टीम को जीत दिलाने में सहायता की। वहीं, नीमराणा के राठ इंटरनेशनल स्कूल में हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच में पहला मुकाबला तिजारा और किशनगढ़ टीम के बीच हुआ। इस मुकाबले में किशनगढ़ टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

राजराजेश्वरी मां दधिमती मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया बसंत पंचमी महोत्सव, उमड़ा भक्तों का सैलाब, मेले का भी हुआ आयोजन



बढ़ता राजस्थान

कोटा (का.स.)। जिले के ग्राम पिताम्बपुरा स्थित कुलदेवी राजराजेश्वरी मां दधिमती मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में महर्षि दाधिमती छात्रावास समिति के अध्यक्ष रविंद्र जोशी, निमेष पुरोहित, नागेश दाधीच, राम कल्याण दाधीच, राजेश दाधीच पिपल्दा, आचार्य कौशल किशोर दाधीच, नरेन्द्र मोहन दाधीच, विष्णु दाधीच, अमित दाधीच, युवा मंडल अध्यक्ष कमल दाधीच, मनोज दाधीच, मुकेश दाधीच आदि गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। महिला मंडल की ओर से अध्यक्ष स्मिता दाधीच, आशा दाधीच, मीना दाधीच, अम्बिका दाधीच, आरती दाधीच और मोनिका दाधीच भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर आयोजक समिति के सदस्यों का सम्मान किया गया। अंत में प्रसाद वितरण भी किया गया। श्रद्धालुओं ने मां दधिमती के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। मेले में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

स्व. भीमराज मीणा बलकासा की 8वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तदान शिविर में 136 यूनिट रक्तदान हुआ



बढ़ता राजस्थान

केशोरायपाटन (सुनील मेघवाल)। स्व. भीमराज मीणा बलकासा की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदाता जीवनदाता परिवार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी, नयापुरा, कोटा में किया गया। रक्तवीर दीनू मीणा और श्याम नागर ने बताया कि हम हर वर्ष इस परिवार के माध्यम से ग्राम बलकासा में रक्तदान शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी, कोटा में किया गया। इस शिविर में पहले बार रक्तदान करने वाले युवाओं, महिलाओं और कई जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पूर्व, रेड क्रॉस सोसाइटी में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 109 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ था, जबकि इस बार 136 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम में सरपंच गोहाटा, सुनिल मीणा और डॉ. रोहित मीणा ने जनप्रतिनिधियों एवं समस्त अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

लाखेरी खुर्द गांव में खेतों में आठ किसानों की केबल चोरी कर ले गए चोर

केशोरायपाटन (सुनील मेघवाल)। केशोरायपाटन लाखेरी खुर्द गांव खेतों में से केबल रात्रि 1.30 बजे के लगभग आठ किसानों की केबल चोरी कर ले गए चोर इससे चोरों के हासिले बुलंद होते नजर आए। किसानों ने केशोरायपाटन थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। किसान हरजिंदर सिंह की मोटर व अन्य किसानों की केबल, देवराज, हेमराज लट्ठर लाल, संजय मीणा, कन्हैयालाल किसानों ने केशोरायपाटन थाने में रिपोर्ट दी। सीआई हंसराज मीणा ने बताया कि मामले पर कारवाई की जा रही है।

बैंकर्स कार्निवल : शुभम होराइजन पार्क में हुआ भव्य आयोजन बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों को निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना था उद्देश्य

कोटा (का.स.)। शुभम गुप के बूंदी रोड स्थित प्रोजेक्ट होराइजन पार्क में रविवार को भव्य बैंकर्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ शुभम गुप के निदेशक अरुण मेहता ने किया। कार्निवल का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों को निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक चलाना। इसमें 250 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों को %होराइजन पार्क% की भव्यता और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव कराया गया। इस विशेष आयोजन में एसबीआई, केनरा बैंक, बीओबी, पीएनबी, यूको बैंक, एचडीएफसी और बीओआई सहित कई प्रतिष्ठित सरकारी और निजी बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हुए। बैंकिंग समुदाय के लोगों ने इस प्रोजेक्ट में गहरी रुचि दिखाई और इसकी विशेषताओं को सराहना की। कार्यक्रम के दौरान अनेक बैंकर्स ने होराइजन पार्क में अपने सपनों का निवेश किया और प्लॉट व मकानों की बुकिंग कराई। इसके साथ ही शुभम गुप के अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे साउथ एक्स, नॉर्थ एक्स, लैंडमार्क पैराडाइज, सिलिकॉन सिटी और माइलस्टोन में भी लोगों ने अपनी रुचि दिखाई।

शुभम गुप की प्रतिबद्धता शुभम गुप के निदेशक शुभम मेहता ने इस अवसर पर कहा, 'हम पिछले 15 वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और उन्हें उचित व आकर्षक दामों पर प्लॉट व मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी यही प्रतिबद्धता इस बैंकर्स कार्निवल के आयोजन का आधार रही है। हमें खुशी है कि बैंकिंग समुदाय के लोगों ने बह-चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और हमारी विशेषताओं पर अपना विश्वास जताया। यह आयोजन हमारे ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और गुणवत्ता की पहचान है। इस आयोजन को ग्राहकों और बैंक कर्मियों से अत्यधिक सराहना मिली। शुभम गुप ने इस सफल आयोजन के लिए सभी बैंक कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इसी प्रकार के निवेश और ग्राहकों के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता जताई।

गिरफ्तार करने घर पहुंची पुलिस को देखते ही बदमाश ने खुद को गोली मारली, हो गई मौत

26 जनवरी को सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार पर की थी फायरिंग, एक आरोपी हो चुका है गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

कोटा (राजीव सक्सेना)। महावीर नगर थाना क्षेत्र में 26 जनवरी की रात एक दुकानदार पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी ने उसे पकड़ने गई पुलिस को देखते ही खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने उसके मकान पर पहुंची थी। खुद को पुलिस से घिरा हुआ देखकर उसने यह कदम उठाया। उल्लेखनीय है आरोपी रुद्र मीना उर्फ आरडीएक्स (26) ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दुकानदार पर फायरिंग की थी।



लोकेशन ट्रेस कर आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस

इसी क्रम में पुलिस ने रविवार को लोकेशन ट्रेस कर बोखेड़ा थाना इलाके में नीलकंठ अपार्टमेंट के पास श्रीनाथपुरम कॉलोनी के एक मकान की घेराबंदी की। एक टीम रुद्र के मकान तक पहुंची, लेकिन उसने गेट खोलने की बजाय खुद को पुलिस से घिरा देख कर अवैध पिस्टल से खुद को गोली मार ली। इससे उसकी मौत हो गई।



लोकेन्द्र पालीवाल ने बताया कि 26 जनवरी को सिगरेट को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों में रुद्र मीना उर्फ आरडीएक्स

निवासी प्रेमपुरा, इटावा भी शामिल था। कई दिन से महावीर नगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिशा दे रही थी।



यह है पूरा मामला

महावीर नगर थाने में 26 जनवरी की रात 10.30 बजे दुकानदार रणजीत सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट दी थी। इसमें उसने बताया था कि जीएडी सर्किल पर उसकी चाय की दुकान पर स्विफ्ट कार में 5 व्यक्ति आए। उन्होंने कार के अंदर बैठे-बैठे ही उससे सिगरेट मांगी। उसने उन्हें कर में जाकर सिगरेट नहीं दी तो

उन्होंने उससे व उसके भाई पवन सिंह हाड़ा से मारपीट की। दुकानदार ने आगे बताया कि इसी दौरान एक युवक ने जान से मारने की नीयत से हम पर फायरिंग कर दी और आरोपी कार लेकर फरार हो गए। गोली उसके भाई पवन सिंह हाड़ा के सीने पर दिल के पास लगी। इस पर पवन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।

दाधीच प्रीमियर लीग की खिताबी ट्रॉफी फाइनल टीम ने की अपने नाम

बढ़ता राजस्थान

कोटा (का.स.)। दाधीच वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित दाधीच प्रीमियर लीग का खिताब फाइनल टीम ने अपने नाम किया। इस टीम ने यह प्रतियोगिता चैम्पियंस को 49 रन से हराकर जीती। मनोज दाधीच ने बताया कि फाइनल मैच के मुख्य अतिथि प्रदीप दाधीच रहे। उन्होंने विजेता टीम और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। मुख्य अतिथि प्रदीप दाधीच ने अपने उद्बोधन में विजेता टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी का प्रदर्शन काबिले तारिफ रहा। विजेता टीम बनने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है आज फाइनल टीम ने एकजुटता का परिचय देते हुए सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाकर ट्रॉफी अपने नाम की।



हाई स्कोरिंग मैच में अंत तक बना रहा रोमांच : संजयक नितेश दाधीच ने बताया कि फाइनल मुकाबला हाई स्कोर का रहा। कप्तान लविश दाधीच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। सधी हुई गेंदबाजी के सामने 115 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चैम्पियन टीम की शुरुआत सही नहीं रही। उनके विकेट शीघ्र ही गिर गए। 66 रन के स्कोर पर ही पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इस प्रकार डीपीएल ट्रॉफी फाइनल ने अपने नाम कर ली। मैच में रोमांच अंतिम क्षणों तक चला। गिरघर दाधीच ने बताया कि 14 रन और 4 विकेट के लिए सुमित व्यास को मैच ऑफ द मैच और 119 रन, 7 विकेट लेने के लिए नवनीत दाधीच को

मैच ऑफ द सीरीज चुना गया। पारितोषिक वितरण समारोह में ये रहे मौजूद : पारितोषिक वितरण समारोह में आशीष पोलगला, अनिल दाधीच, अमित दाधीच, पुनीत दाधीच, रघुवीर दाधीच, नवनीत दाधीच, रोहित दाधीच, पवन दाधीच, अखिल दाधीच, अंशुल दाधीच, विश्वामित्र दाधीच, अक्षय दाधीच आदि मौजूद रहे। दिनेश दाधीच व रोहित दाधीच ने मैच संचालन किया।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 शांतिपूर्वक सम्पन्न

बढ़ता राजस्थान

बूंदी, (नि.स.)। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 रविवार बूंदी, तालेडा व हिण्डोली उपखंड मुख्यालय पर स्थापित 30 केंद्रों पर शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने बूंदी शहर में परीक्षा के लिए स्थापित राजकीय महाविद्यालय व इम्मानुएल सीनियर सैकेंडरी में स्थापित केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने महाराजी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजन का जायजा लिया। परीक्षा समन्वयक

एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि परीक्षा में 9373 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें 5871 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 3502 अनुपस्थित रहे। परीक्षा में उपस्थिति प्रतिशत 62.64 रही। जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न करवाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। प्लताईंग स्वक्यायड दलों द्वारा निरंतर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई। प्रत्येक केंद्र पर अनाधिकृत/डमी व्यक्तियों/अनुपस्थित अभ्यर्थियों/अन्युक्ति साधनों विधि विरुद्ध किया कलापों इत्यादि के साक्ष्य संग्रहण के लिए वीडियोग्राफर के माध्यम वीडियोग्राफी करवाई गई।

चम्बल फिल्म महोत्सव 2025 में मार्स की शानदार सफलता, दो खिताब किए अपने नाम

बढ़ता राजस्थान

कोटा (का.स.)। कोटा के मार्स स्टूडियो ने 'चम्बल फिल्म महोत्सव 2025' में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दो महत्वपूर्ण पुरस्कार अपने नाम किए। यूआईटी ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुए कार्यक्रम में मार्स स्टूडियो की बेहतरीन प्रस्तुतियों ने दर्शकों और निर्णायक मंडल का दिल जीत लिया। विशेष बात यह रही कि दुनिया के 93 देशों से आई 1104 फिल्मों में से इन दोनों फिल्मों का चयन किया गया, जो मार्स स्टूडियो की रचनात्मकता और शानदार दृश्यात्मक प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। वहीं, फिल्म



जॉग' को उपविजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुख्य अतिथि सैयद कादरी द्वारा सौंप गए। मॉनिंग जॉग ने अपनी बेहतरीन कहानी और शानदार दृश्यात्मक प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। वहीं, फिल्म

उपलब्ध पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, चम्बल फिल्म महोत्सव सभी रचनात्मक लोगों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच है। इन दोनों फिल्मों की टीम के साथ काम करना और कलाकारों को सही तरीके से जोड़ना इस सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। मार्स स्टूडियो की यह उपलब्धि न केवल कोटा के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह भविष्य के फिल्म निर्माताओं के लिए भी प्रेरणादायक है। उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो-विजुअल निर्माण और रचनात्मकता में अग्रणी मंगल स्टूडियो लगातार कोटा को सिनेमा की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।

कलश यात्रा निकाली, यज्ञ में दी आहुतियां

बढ़ता राजस्थान

रावतभाटा (नि.स.)। विद्या भारती विद्यालय श्री राम बाल विद्या मंदिर में मां सरस्वती के पूजन पर्व बसंत पंचमी पर रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। विद्या की देवी मां सरस्वती के पर्व बसंत पंचमी पर बसंत प्रवेशोत्सव का संस्कृति मय आयोजन हुआ। शिशु वाटिका प्रमुख निशा वैष्णव ने बताया कि भैया बहनों के विद्यारंभ संस्कार के तहत माता सरस्वती का पूजन हुआ। 21 कलश वेदों को मस्तक पर रखे ध्वज पताकाएं लहराते हुए ढोल की थाप पर बड़े मंच पर उलगावह से

कलश यात्रा प्रारंभ हुई। मातृशक्ति और भैया बहनों ने उत्साह दिखाया कलश यात्रा के विद्यालय प्रांगण में पहुंचने के बाद विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव रोहित कुमार जैन सदस्य नरेंद्र सिंह राठौड़ प्रधानाचार्य भूपेंद्र कुमार शर्मा यशोदा पंचोली कुसुम कच्छवा शीला शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर पंच कुंडीय यज्ञ में अभिभावकों भैया बहनों आदि ने कल्याण और मंगल कामना के लिए नमो सरस्वती नमो नमः का जाप किया। यहां पाठी पूजन के बाद सामूहिक मां सरस्वती की आरती की अभिभावक भैया बहनों उपस्थित



रहे। वैदिक मंत्रोच्चार से हवन अनीता हाडा भाग्यवंती कानावत ने किया। सेल्फी प्वाइंट सीमा गोड प्रीति पुरोहित पूजा दामाणी रंगोली राधे शर्मा चंदा मेहर आशा सुधार सुशीला रेगर मंच सज्जा रखा

वैष्णव वाहन सजावट गोविंद सोनी छायाचित्र खुशबू जगम विशेष सहयोग मंजू सेन रतन मेघवाल राग मोहम्मद भोजराज भील किशन लाल गुर्जर चंदन हरिजन ने किया।

बसंत पंचमी के अवसर पर निकली शोभायात्रा

बढ़ता राजस्थान

के शोरायपाटन (सुनील मेघवाल)। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में बसंत पंचमी के अवसर पर नामदेव छीपा समाज ने संत नामदेव जी की शोभायात्रा निकाली। यह शोभायात्रा भगवान श्री केशव

राय जी के मंदिर से देव विमान की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुई। शोभायात्रा में चुड़सवार भी शामिल थे। शोभायात्रा में भगवान विठ्ठल और संत नामदेव जी की स्वरूप झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी। शोभायात्रा में नामदेव छीपा समाज के बड़ी संख्या में युवा,

प्रबुद्ध जन और महिलाएं उपस्थित थीं। डीजे पर विठ्ठल भगवान के मधुर भजनों पर महिलाएं नृत्य करती हुई चल रही थीं। शोभायात्रा के दौरान शांति नामदेव जी और भगवान विठ्ठल के जयकारे गूंज रहे थे। शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया

गया। नामदेव छीपा समाज के लोगों ने देव विमान में विराजे संत नामदेव जी की पूजा अर्चना की। शोभायात्रा पुराना तहसील मार्ग से होती हुई पुराना बस स्टैंड, चौमूखा बाजार, रामलाली चौक से होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर जाकर समाप्त हुई।

अकलंक विद्यालय में इवेंट वॉक-ओ-रन किंग प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित



बढ़ता राजस्थान

कोटा (का.स.)। अकलंक विद्यालय एसोसिएशन की ओर से आयोजित इवेंट वॉक-ओ-रन प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रांगण में रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. साकेत गोयल ने अध्यक्ष पीयूष बजा, सचिव अनिमेष जैन व संस्था के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर डॉ. गोयल

ने छात्रों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फिटनेस की ओर उठाना गया हर कदम एक स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ने का संकेत है। उन्होंने छात्रों को नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने की सलाह दी। विद्यालय प्रशासन ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों व आयोजकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में छात्रों व शिक्षकों ने बह-चढ़कर भाग लिया। इससे पूरे विद्यालय में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता का माहौल बना।

आलू गोभी मटर पनीर की सब्जी पड़ी भारी, सब्जी खाकर 60 लोग हुए बीमार

बढ़ता राजस्थान

भरतपुर (यतेन्द्र पाण्डेय)। शादी समारोह में आलू-गोभी और मटर-पनीर की सब्जी खाकर 60 लोग बीमार हो गए। सूचना पर गांव में पहुंची मेडिकल टीमों ने चारपाई पर मरीजों को लेटा दिया और पेड़ों पर ड्रिप की बोतलें टांग दी। घटना जिले के नदबई उपखंड क्षेत्र के गाजीपुर गांव की है। गांव में रविवार सबह हुई घटना में 17 मरीजों को नदबई भेजा गया। सूचना पर गांव में पहुंची मेडिकल टीमों ने चारपाई पर मरीजों को लेटा दिया और पेड़ों पर ड्रिप की बोतलें टांग दी। घटना नदबई के गाजीपुर गांव में रविवार सुबह हुई। 17 मरीजों को नदबई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नदबई के ब्लॉक मुख्याधिकारिका अधिकारी डॉ. राहुल कौशिक ने बताया- हमें रविवार दोपहर को सूचना मिली कि गांव में कुछ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। हॉस्पिटल से 10 सदस्यीय मेडिकल टीम को दोपहर 3 बजे गांव भेजा गया। वहां करीब 60 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार मिले। 17 लोगों की स्थिति गंभीर थी। उन्हें एंबुलेंस से नदबई अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। बाकी



लोगों का इलाज गांव में ही चारपाई पर कर रहे हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। रात से उल्टी-दस्त, पेट दर्द की शिकायत : गाजीपुर गांव निवासी सुरेश के बेटे की रविवार को शादी है। शादी से पूर्व शनिवार को खाने का कार्यक्रम किया था। इसमें गांव के लोग शामिल हुए थे। शाम को समारोह में लोगों ने खाना खाया। खाने में लड्डू, पूरी, आलू-गोभी और मटर पनीर की



सब्जी थी। खाना खाने के बाद रात में कुछ लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। ग्रामीण रतनलाल ने बताया मेरा नाती खाना खाने गया था। उसे उल्टी-दस्त होने लगे। अब इलाज चल रहा है। इन लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती : अस्पताल प्रशासन के अनुसार फूड पॉइजनिंग से माया (58) पत्नी लखन सिंह, रामा (32) पत्नी सुमेर

सिंह, लोंगशी (75) पत्नी गुरुचरण, गेंदी (70) पत्नी अर्जुन, सुगड़ (60) पुत्र हरिओम, गजेंद्र (11) पुत्र विष्णु, रविंद्र (28) पुत्र लखन, सत्येंद्र (7) पुत्र सुमेर सिंह, अन्नू (9) पुत्री सुमेर, रोहित (10) पुत्र अशोक, इंद्रजीत (13) पुत्र अशोक, गुंजन (13) पुत्री समय सिंह, मोहिनी (11) पुत्री सत्यवीर, अंगूरी (68), बुजेश (22), सुमित्रा (40), माया (50) को नदबई के सरकारी अस्पताल में भर्ती है।



चारपाई के नीचे ठंड से बचने को लगाया अलाव, महिला जलकर हुई खाक

बढ़ता राजस्थान

भुसावर (यतेन्द्र पाण्डेय)। कस्बे के बड़ा मोहल्ला भडाके वाले तराई के पास रहने वाली वृद्ध महिला लच्छो देवी (60) की घर के अंदर खाट पर सोते समय रात्रि को जलने के कारण मौत हो गई। प्राण जानकारी के अनुसार लच्छो देवी पत्नी स्वर्गीय मूलचंद जाति जाटव बड़ा मोहल्ला भडाके वाले तिराये के पास अपने घर में अकेली रहती थी गत रात्रि को सर्दी से बचाव के लिए अपनी चारपाई के नीचे अलाव रख कर सो गई।

सुबह लगभग 4 बजे पड़ोसी मोहन सिंह बाथरूम के लिए जागा तो लच्छो देवी के कमरे से धुआ उठता हुआ देखा। मोहन सिंह ने पड़ोसियों को जगाया पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों को मदद से दरवाजा तोड़ा कमरे

में जली हुई चारपाई पर लच्छो देवी का कंकाल मिला। पुलिस ने डॉक्टर और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर महिला का पोस्टमार्टम कराया फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए चारपाई के नीचे अलाव की बारात रखी मिली, कमरे का सभी सामान जलकर खाक हो गया। महिला जिस चारपाई पर सोई हुई थी वह पूरी तरह से जलकर टूट चुकी थी। लच्छो देवी के पति एवं दो पुत्रों की पूर्व में ही मौत हो चुकी है! उसकी एक बेटी है उसके दामाद ने पुलिस में मार्ग दर्ज कराया।

इनका कहना है : मौके की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि महिला के आग लगने के बाद उसे चारपाई से उठने का भी मौका नहीं मिला और उसकी वहीं मौत हो गई। मृतका के दामाद केशव ने रविवार को मामले में भुसावर थाना में मार्ग रिपोर्ट दी है। नरेश चंद्र शर्मा थाना अधिकारी भुसावर

प्रतापगढ़ में होने वाली महारैली की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

बढ़ता राजस्थान

छोटीसादड़ी। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले 31 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 फरवरी को प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय आमसभा एवं महारैली का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से छोटीसादड़ी ब्लॉक में बीसीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के 31 मुद्दों को ब्लॉक के सभी गांवों और ग्राम पंचायतों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महारैली में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

साथ ही, प्रचार-प्रसार की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। और इस बैठक के माध्यम से सभी पदाधिकारियों ने आगामी महारैली को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और ऊर्जा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। और बैठक में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निगाम, जिला संयोजक बदी भगोरा, बाप जिला संरक्षक राजेश भाई हिंडोर, विधायक प्रतापी बड़ीसादड़ी फौजी भाई बरोड़, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के जिला संयोजक बहादुर निनामा, प्रदेश कोषाध्यक्ष बालू भाई निनामा, सहसंयोजक कंवरलाल बरोड़, ब्लॉक संयोजक रायसिंह कलासुआ, प्रभारी उदयलाल, मोडिया प्रभारी विक्रम भाई बरगोट, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण हरमोर सहित आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय, जिला, मंडल एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भागवताचार्य मदन मोहन जी महाराज का किया सम्मान

बढ़ता राजस्थान

भुसावर (यतेन्द्र पाण्डेय)। श्रीधाम वृन्दान में आयोजित भागवत कथा के चौथे दिन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पूर्व सांसद पंडित राम किशन के सानिध्य व श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी कौशलेश शर्मा नेतृत्व में भागवताचार्य मदन मोहन जी का माला पटका व तस्वीर भेंटकर सम्मान किया गया। भागवताचार्य ने अर्जुन-द्रौपदी विवाह संवाद, भागवान राम जी के विभीषण को शरणागत होने पर आओ लंकेश से संबोधित कर सम्मान देकर सबको चौंका दिया जिसका वर्णन भागवताचार्य जी ने बड़े ही मार्मिक व सरलता से वर्णित किया। सुकदेव जी व परीक्षित आदि संवादों का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया, जिसे सुनकर भक्तगण भावविभोर होकर अनंतित हुए।

भागवत कथा बहुत सारगर्भित रही इस अवसर पर सेवानिवृत्त उपनिदेशक समाज कल्याण व पूर्व जिलाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन नेमीचंद्र शर्मा, समता आन्दोलन के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर, तिलक नगर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्य पंडित वनवारी लाल तिलक नगर, रोडवेज संभाग अध्यक्ष दिनेश चंद्र जघोना, सेवानिवृत्त अमीन गोपाल प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन ईश्वरी प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता देवकीनंदन शर्मा, अन्न पूर्णा रसोई संचालक विष्णुदत्त शर्मा, समता आन्दोलन के सक्रिय सदस्य अशोक कुमार सास वैद्य चंद्र प्रकाश दीक्षित आदि अनेक गणमान्य लोग महिलाएं मौजूद रहे। पुष्पावटिका भरतपुर निवासी यजमान रामेश्वर दयाल शर्मा, प्रभूदयाल शर्मा योगेश शर्मा विष्णुदत्त शर्मा ने आंगतुकों सम्मान किया। आचार्य जी ने सभी को आशीर्वाद दिया।

आरएस प्री परीक्षा, बाड़ी में बसों में भीड़ : गेट पर लटककर सफर के लिए मजबूर अभ्यर्थी, बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थी

बढ़ता राजस्थान

बाड़ी (नि.स.)। धौलपुर जिला मुख्यालय में आयोजित हो रही आरएस प्री परीक्षा के लिए परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के बावजूद पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे परीक्षार्थियों को बसों में खड़े होकर और गेट पर लटककर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ा। सरमथुरा के पिपरनी गांव के अभ्यर्थी अमित सिंह ने बताया कि उन्हें गांव से हाईवे 11वी तक पैदल चलना पड़ा और फिर निजी वाहन से बाड़ी पहुंचे। बाड़ी से धौलपुर जाने के लिए बसों की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी।

बाड़ी संख्या में बाहर से आ रहे अभ्यर्थियों के लिए भी धौलपुर डिपो द्वारा कोई अतिरिक्त बसें नहीं लगाई गई। बाड़ी के वरिष्ठ अधिका शौकत अली खान ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की यह जिम्मेदारी थी कि वह परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि धौलपुर डिपो को पहले से ही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रशासन की ओर से इस मामले में उचित मॉनिटरिंग का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड फ्लू की दस्तक पर्यटकों को पक्षियों के नजदीक नहीं जाने के निर्देश

बढ़ता राजस्थान

भुसावर (यतेन्द्र पाण्डेय)। विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में बर्ड फ्लू की दस्तक के कारण पर्यटकों को उद्यान प्रशासन द्वारा झील के अंदर पानी में नहीं उतरने की सूचना जारी की है पक्षियों की मॉनिटरिंग के लिए उद्यान में अधिकारी एवं कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। पेंटेट स्टार्क पक्षी के एक बच्चे में बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद, उद्यान में किसी भी तरह के कोई गंभीर हालात नहीं है। बतौर सावधानी पर्यटकों को पक्षियों के ज्यादा नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है।

अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग : वर्तमान हालातों को देखते हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों भी दिन में चार बार उद्यान और बाहर के क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार घना के बाहर किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू वायरस के लक्षण नहीं मिलने से अभी कोई चिंताजनक स्थिति नजर नहीं आ रही है सूत्रों का कहना था कि उद्यान से भोपाल प्रयोगशाला भेजे गए कई नमूनों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

पर्यटकों को नहीं किसी प्रकार की परेशानी : उद्यान प्रशासन ने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की है कि वे बिना भय



के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आ सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहां आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गौरतलब है कि पक्षी

विहार में इन दिनों देश-विदेश से विचरण करने आए सेकड़ों प्रजातियों के हजारों पक्षियों से 1200 हेक्टेयर में फैला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) गुलजार है।

श्वेतांबर जैन मंदिर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई

बढ़ता राजस्थान

वैर / भरतपुर (गोपाल पाठक)। श्री श्वेतांबर पल्ली वार संभवानाथ जैन मंदिर में छठी वार्षिक ध्वजा चढ़ाई की गई। कमेटी की मंत्री सतीश जैन ने बताया कि विधि विधान पूर्वक हर्ष जैन गंगापुर द्वारा स्नान पूजा सत्र पूजा के आयोजन कर ध्वजा चढ़ाई जिसमें मुंबई से पधारे पूजा के लाभार्थी परिवार धनुसुख छेड़ा, चैत्यछेड़ा की तरफ से ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। अंत में आरती मंगलदोष प्रसाद वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ।



विभिन्न अपराधों में पांच जने किये गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

वैर / भरतपुर (गोपाल पाठक)। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश आईपीएस जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर मुदुल कच्छवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय नारायण मीणा, भुसावर वृत्त अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत 30 नि के नेतृत्व में टीम गठित कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले व शराब पीकर उत्पात मचाने वाले व सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिस के अंतर्गत

राममोहन पुत्र ओमप्रकाश उम्र 35 साल जाति कोली निवासी भोपर वैर को धारा 185 एमवीएक्ट में गिरफ्तार किया जाकर मोटरसाइकिल को जप्त किया। मुकेश पुत्र रामधन उम्र 35 साल जाति मीणा निवासी मेनावास कस्बावेर को 60क.पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया, दशरथ उर्फ बगुला पुत्र नारायण 25 साल जाति माली निवासी भुसावर गेट कस्बा वैर को 60 क पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया, लक्खो पुत्र बाबूलाल उम्र 27 साल जाति जाटव निवासी समराया थाना वैर 355 बीएनएस में गिरफ्तार किया, राजवीर पुत्र राम खिलाड़ी उम्र



40 जाति गुर्जर निवासी भौडागांव थाना वैर 126 ,170 बीएनएस में गिरफ्तार किया। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक टीम

गठित की गई जिसमें नरेंद्र सिंह राजावत थाना अधिकारी वैर वृजभान सिंह, कुशीवर सिंह, वीर सिंह को शामिल किया गया था।

12वीं कक्षा छात्र के साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार : 9 दिन तक बंधक बनाकर रखा

बढ़ता राजस्थान

बयाना / भरतपुर (सत्यप्रकाश अग्रवाल)। 15 युवकों ने 12वीं कक्षा के एक छात्र से स्कूल फीस के 15 हजार रुपए और एंड्राइड मोबाइल छीन लिया। इसके लिए आरोपियों ने छात्र को 9 घंटे बंधक बनाकर रखा।

गढ़ीबाजना के पुरपुरा गांव का रहने वाला पीड़ित छात्र कृष्णा बयाना में अपने चाचा के साथ रहकर पढ़ाई करता है। 30 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे थानाडांग निवासी रंजीत उसे स्कूटी पर गंभीर नदी के पास ले गया, जहां कपिल, रोहित और

स्कूल फीस व मोबाइल छीना

एक अन्य युवक पहले से मौजूद थे। इन सभी ने छात्र पर बाइक की चैन और बाक्सिंग पंच से हमला किया। इसके बाद रात करीब 9 बजे आरोपी ने पीड़ित छात्र को कट्टे का भय दिखाकर पैसे और मोबाइल छीनकर फरार हो गए।

तीन दिन बाद पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। बयाना कोतवाली थाना प्रभारी



बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी और पीड़ित आसपास के गांवों के हैं। पुलिस

मारपीट के कारणों की जांच कर कानूनी कार्रवाई करेगी। घायल छात्र को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है।

कानून व्यवस्था चक्का चौबंद के लिए थाना अधिकारी सक्रिय

बढ़ता राजस्थान

भुसावर (यतेन्द्र पाण्डेय)। नवनियुक्त थानाधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए पुलिस टीम के साथ कस्बे में पलंग मार्च निकाला क्षेत्र को कानून व्यवस्था का जायजा लिया। थानाधिकारी शर्मा ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान पुलिस के मूल सिद्धांत 'अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास' को पूरी तरह लागू किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों

से आग्रह किया कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। साइबर अपराध से बचाव पर विशेष जोर देते हुए थानाधिकारी ने लोगों को फ्राड कॉन्स से सावधान रहने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अवैध गतिविधियों, विशेषकर शराब की अवैध बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। थानाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कस्बे में निकाला मार्च पास्ट



रोशनी महिला मंडल की मीरा गोयल अध्यक्ष मधु जैन महामंत्री नियुक्त



बढ़ता राजस्थान

डींग / भरतपुर (मुकेश सैनी)। डींग क्षेत्र के अंतर्गत डींग रोशनी महिला मंडल सामाजिक संस्थान की स्थापना की गई है। हमारा यह शुभ सामाजिक कार्य के उत्थान के लिए कार्य करेगा जिसमें विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा को लेकर, गरीबों की सहायता, बेटीयों की शारियां, तथा चिकित्सक वर्ग में कैप की सुविधा देकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगी। आज सभी सदस्यों की सर्व सहमति से डींग

रोशनीमहिला मंडल की फाउंडर अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मीरा गोयल को अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया तथा फाउंडर महामंत्री के रूप में श्रीमती मधु जैन को यह कार्य की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। यह सभी अपने कार्य अपने भी सदस्यों के साथ आज के शुभ दिन में आरंभ करती हैं और उन्होंने यह बताया यह यहां के सामाजिक कार्य डींग के समस्त जन तथा भामाशाहों की मदद से समाज के उत्थान के लिए करते रहेंगे।

श्वान ने तीन साल के बच्चों को नोंचा

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। गोविंदगढ़ थाना इलाके में तीन साल के बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह नोच दिया। कुत्ते के दांत से बच्चे के गाल पर छेद हो गया। बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्ते को भगाया। परिजन बच्चे को गंभीर हालत में चौमू के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। घटना शनिवार शाम 5 बजे

गोविंदगढ़ स्थित गांव हाड़ोता की है। बच्चे के पिता ओमप्रकाश यादव ने बताया कि कृष्णा (3) घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान एक कुत्ते ने कृष्णा के चेहरे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने कृष्णा के गाल पर काट लिया। इससे गाल में छेद हो गया। बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर आए थे। घाव अधिक होने और गाल में छेद होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया था।

श्री कालभैरव देव स्थल पर रात्रि जागरण आज

बढ़ता राजस्थान

चित्तौड़गढ़, (नि.स.)। बोजुन्दा पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित श्री कालभैरव (काला बावजी) देव स्थल पर सोमवार को रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। जबकि मंगलवार 4 फरवरी को प्रातः धूप ध्यान, पूजन व बालभोग का आयोजन होगा। भोपाजी बाबूलाल जटिया सतखंडा ने बताया कि श्री काला बावजी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार गुप्त नवरात्रि माघ छठ उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है। बोजुन्दा में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अति प्राचीन श्री काल भैरव (श्री काला बावजी) मंदिर अति प्राचीन और चमत्कारिक देवस्थल है। अति प्राचीन इस धर्म स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का वर्ष भर आवागमन रहता है।

विक्टर राउंड टेबल 361 करेगा चार नए कक्षा कक्षाओं का निर्माण

बढ़ता राजस्थान

चित्तौड़गढ़, (नि.स.)। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राउंड टेबल संस्था ने विद्यालय में भौतिक सुविधाओं को सुधारते हुए चार नए कक्षा कक्षाओं के निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष दीपक पगारिया ने विशिष्ट अतिथि रौनक जैन और उपाध्यक्ष विनीत जैन, सचिव ऋषभ सिंसोदिया, कोषाध्यक्ष प्रतीक सिंसोदिया, और पूर्व अध्यक्ष अनुज इनानी एवं अन्य सदस्य ऋषि राज इनानी, हिमांशु समदानी, रौनक इनानी, अनिकेत झांवर, कृष्णा इनानी, कार्तिक जिंदल, विनीत ओझा, हर्ष हेड़ा, वैभव मालीवाल, वैभव जैन, राहुल सिंसोदिया, रोहित पुंगलिया, शुभम पुंगलिया की उपस्थिति में बताया कि आगामी समय में इन कक्षा कक्षाओं को विद्युत, फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड और अन्य आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

किसान रजिस्ट्री शिविरों की तैयारी पूर्ण 11 अंकों की यूनिवर्सिटी आई.डी. से मिलेगा सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ

बढ़ता राजस्थान

चित्तौड़गढ़, (नि.स.)। केन्द्र सरकार की एग्रीस्टेक योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक किसान को 11 अंकों का यूनिवर्सिटी फार्मर आई.डी. मिलेगा जिसे आधार नंबर से लिंक किया जायेगा। इस फार्मर आई.डी. से सरकार की समस्त योजनाएं यथा पी.एम. किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, सब्सिडी इत्यादि का लाभ मिलेगा। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी पर निर्भरता समाप्त हो जायेगी।

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जिले में 05 फरवरी से 30 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 03 दिवसीय शिविर आयोजित किये जायेंगे, फार्मर आई.डी. से किसान के कृषि भूखण्ड हिस्सा जोड़ा जायेगा। जिसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमाबन्दी की प्रतिलिपियां शिविर में लेकर आए। इस आई.डी. से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद के विपणन में आसानी होगी। किसानों को फसली ऋण, फसल बीमा क्षतिपूर्ति एवं आपदा राहत राशि प्राप्त करने में सुगमता होगी। अर्थात् एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे ही किसानों को मिल सकेगा। किसान रजिस्ट्री में राजस्व रिकॉर्ड स्वतः अपडेट हो जायेगा। किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आई.डी. अनिवार्य होगी।

05 फरवरी से लगे शिविर

नोडल एवं भू अभिलेख प्रभारी अधिकारी वीनू देवल ने बताया कि 05 फरवरी से चित्तौड़गढ़ जिले को प्रत्येक तहसील की 01 ग्राम पंचायत 10 फरवरी से 02 ग्राम पंचायत एवं 17 फरवरी से 05 ग्राम पंचायत में 03 दिवसीय शिविर आयोजित किये जायेंगे। शिविर में तहसील स्तर के समस्त विभाग यथा पंचायतीराज विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग, रसद विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिविर में आबादी पट्टा वितरण, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधी कार्य भी किये जायेंगे।

बसंत पंचमी पर महर्षि च्यवन गौड़ बारेगामा समाज ने धार्मिक अनुष्ठानों सहित शोभायात्रा का आयोजन किया आज महर्षि च्यवन ऋषि मंदिर ब्रह्मपुरी कपासन पर सांय 6 बजे अन्नकूट महोत्सव



बढ़ता राजस्थान

कपासन (नि.स.)। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर महर्षि च्यवन गौड़ बारेगामा समाज के आग्रह पर महर्षि ऋषि एवं सुकन्या मंदिर प्रांगण में विधि-विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ भव्य यज्ञ-हवन का आयोजन किया गया जिसमें समाज के वरिष्ठ सदस्य ख्यालाराम बारेगामा,संजय बारेगामा,प्रमोद कुमार बारेगामा,ठाकुरप्रसाद बारेगामा,मुकेश बारेगामा, गोवर्धनलाल बारेगामा,दिलीप कुमार बारेगामा, नवयुवक मंडल अध्यक्ष मनीष बारेगामा, महाविद्यालय अध्यक्ष तरुण बारेगामा,महर्षि च्यवन नवयुवक मंडल महामंत्री कैलाश बारेगामा,रजत जोशी,युवा समतसेवी देवेश बारेगामा,लोकेश बारेगामा,राजेश बारेगामा आदि समाजजनों द्वारा च्यवन ऋषि की पूजा-अर्चना कर हवन-यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों संपन्न किये गये। साथ ही बसंत पंचमी पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के महिला मंडल की सदस्य ललिता बारेगामा,रेखा शर्मा,नगर पालिका कपासन पाषंद सुनीता शर्मा,अधिवका खुशबू बारेगामा,सुनीता बारेगामा,अंतिम बारेगामा आदि महिला सदस्यों द्वारा समाज के मंदिर प्रांगण में भगवान महर्षि च्यवन ऋषि की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गयी।यहां दोपहर बाद महर्षि च्यवन गौड़ बारेगामा समाज कपासन के तत्वावधान में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में धार्मिक गीत एवं भजनों पर झूमते-नाचते उत्साहपूर्वक शोभायात्रा का आयोजन किया गया।इस शोभायात्रा समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुरी,छत्रपति शिवाजी चौक,पुराना बस स्टैंड,पंचबती चौराहा,लोड़िकिया चौक,पिपली बाजार से आग्रह पहुंचकर संपन्न हुई तथा महर्षि की मां कर भक्ती एवं श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

इधर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में महर्षि च्यवन ऋषि मंदिर ब्रह्मपुरी कपासन पर सोमवार महर्षि च्यवन जयंती पर सांयकाल 6 बजे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।

राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 सम्पन्न, परीक्षा में 63 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने भाग लिया

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णु दत्त धीमान)। ब्यावर में रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 सम्पन्न हुई। इस मौके पर 23 केंद्रों पर 6548 में से 4129 परीक्षार्थियों ने ही भाग लिया। 2419 प्रतियोगियों ने इस परीक्षा में भाग नहीं लिया। कुल 63 प्रतिशत प्रतियोगियों की उपस्थिति रही। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावालिया ने बताया कि सभी 23 केंद्रों पर पूरी तरह से परीक्षकों ने व्यवस्था को पूरी तरह से संभाले रखा। किसी भी केंद्र पर किसी भी तरह की कोई वारदात या किसी भी तरह की कोई घटना नहीं घटी। जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खडगावत के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का



अवलोकन कर व्यवस्थाओं को देखा और परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में जाकर जांच आदि की। ब्यावर के 13 प्राइवेट विद्यालयों में 2320 प्रतियोगियों ने परीक्षा दी वहीं शेष 10 विद्यालयों में 1809 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र



शर्मा ने बताया कि सभी 23 परीक्षा केंद्रों पर 214 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात कर परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला पुलिस द्वारा 04 सतकंता दल, 6 मोबाइल पार्टीयां एवं 06 फिक्स

पिकेटों का गठन किया गया था जो लगातार फिल्ड में पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दौरान वृत्ताधिकारी वृत्त मसूदा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर सिटी, सदर व साकेत नगर व परीक्षा केंद्रों पर लगा जाब्ता, पुलिस मोबाइल पार्टीयां व

सतकंता दल उपस्थित रहे। शहर में सुबह से ही परीक्षा देने वालों की परीक्षा केंद्रों के आस-पास भीड़ लगाना शुरू हो गयी थी। लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर बाहर से आये प्रतियोगियों के लिए उनके सामान के रखने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस के जवान परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों की जांच कर उन्हें परीक्षा कक्ष में भेजा जा रहा था।

एन वक्त पर मांगी दो फोटों

ब्यावर में परीक्षा देने आये

परीक्षार्थियों को उस वक्त भारी दिक्कत का सामना करना पड़ जब गोदावरी आर्या ग्लॉस स्कूल में तैनात परिविक्षक ने जब परीक्षार्थियों से दो-दो फोटो की डिमांड कर डाली। मौके पर खड़े कई परीक्षार्थियों ने पास में ही उपस्थित फोटोग्राफर से अतिरिक्त फोटो खिंचवाकर उपलब्ध करवाई। इस दौरान करीब चार-पांच परीक्षार्थियों को समय पूर्ण होने के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि इसकी किसी भी अधिकारी ने कोई पुष्टि नहीं की है।

जवानों के भी मोबाइल जब्त किये

ब्यावर में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के दौरान गोदावरी आर्या बालिका विद्यालय में तैनात परिविक्षक ने परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े पुलिस जवानों के भी मोबाइल अपने कब्जे में ले लिये। परिविक्षक द्वारा जवानों के मोबाइल ले लिये जाने पर कई पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने एतराज व्यक्त किया। शेष 22 केंद्रों पर कहीं भी पुलिसकर्मियों से मोबाइल नहीं लिया गया।

राजस्थान पेंशनर मंच द्वारा आयोजित महाअधिवेशन के पोस्टर का किया विमोचन

बढ़ता राजस्थान


बूंदी (अनन्त दाधीच)। राजस्थान पेंशनर मंच द्वारा आयोजित 23 फरवरी रविवार को होने वाले महाअधिवेशन के पोस्टर का विमोचन महा अधिवेशन संयोजक पुरुषोत्तम पारीक ने श्री नाग पास गणेश जी की पूजा अर्चना कर किया। महाअधिवेशन के प्रचार संयोजक महेश श्रुंगी ने बताया की 2 फरवरी रविवार को प्रातः शुभ मुहूर्त में बालचंद्र पाड़ा स्थित श्री नाग पास गणेश मंदिर में विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार से पंडित दीनदयाल शास्त्री द्वारा महाअधिवेशन संयोजक पुरुषोत्तम पारीक से पूजा अर्चना करवाई व पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर महाअधिवेशन संयोजक पुरुषोत्तम पारीक ने 23 फरवरी रविवार को होने वाले पेंशनर्स महा अधिवेशन की रूपरेखा बताई जिसमें प्रातः 10 बजे से 11 तक पंजीयन एवं अत्याहार होगा, 11.30 बजे से 12.30 बजे तक संगठनात्मक परिचर्चा की जावेगी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उद्घाटन एवं सम्मान समारोह किया जावेगा



1,75 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों का सम्मान किया जावेगा, शाम 5 बजे से स्नेह भोज प्रारंभ किया जाएगा इस अवसर पर गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें राजस्थान पेंशनर्स मंच जिला अध्यक्ष घनश्याम दुबे ने राजस्थान पेंशनर मंच बूंदी द्वारा पेंशनरों के हित में किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया तथा भविष्य में पेंशनर मंच द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बताई। प्रदेश महामंत्री महावीर शर्मा ने प्रदेश नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए मांग पत्र का विस्तार से वर्णन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित ओमप्रकाश तलवास ने बूंदी की संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला, सभा अध्यक्ष रामनिवास मीणा ने

पेंशनरों को आवाहन किया कि वह जागरूक रहकर अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अनुभव के आधार पर समाज की सेवा करें जिला महामंत्री शंभू दयाल मेहरा, कार्यालय मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा, बूंदी शहर अध्यक्ष अनिल गुप्ता, नैनावा उपशाखा अध्यक्ष शंभू सिंह सोलंकी, प्रचार मंत्री नंद प्रकाश शर्मा नंद जी, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश जैन, महावीर सोनी, मनोज जोशी, राधावल्लभ सोनी, मेहंदी हुसैन बोहरा, गोपाल लाल मेघवाल, प्रभु दत्त राजाराम, जयप्रकाश शर्मा, रामेश्वर दुबे, राम प्रसाद बेरवा सहित अन्य वक्ताओं ने 23 फरवरी रविवार को देवपुरा स्थित श्री महावीर गार्डन में होने

डोडा चूरा तस्करी करते पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार कर 17 किलो 752 ग्राम डोडा चूरा जप्त किया



बढ़ता राजस्थान

भीलवाड़ा (नि.स.)। जिले की मांडल थाना पुलिस ने भीलवाड़ा से जोधपुर जा रही निजी बस से डोडा चूरा तस्करी करते पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार कर 17 किलो 752 ग्राम डोडा चूरा जप्त किया है। मांडल पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह मांडल चौराहा चौकी के बाहर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भीलवाड़ा से जोधपुर जाने वाली निजी बस में लखविंदर सिंह नामक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास एक काले रंग के बड़े बैग

और कैरी बैग में मादक पदार्थ हो सकता है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने बस को रुकवा कर चेक किया तो लखविंदर सिंह उसमें सवार मिला और उसके कब्जे से 17 किलो 752 ग्राम अफीम डोडा चूरा भी जप्त किया। पुलिस ने पंजाब प्रांत के फरीदकोट जिले के नवा टेहन निवासी लखविंदर सिंह (35) पुत्र लालचंद नाई सिख को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस लखविंदर सिंह से डोडा चूरा की खरीद फरोखत के संबंध में पूछताछ कर रही है।

खेल टीमवर्क विकास में सहायक - आक्या

ग्राम मेरुसिंह का खेड़ा में भील समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम्भ



बढ़ता राजस्थान

चित्तौड़गढ़ (नि.स.)। खेलों से सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जीतने की क्षमता विकसित होती है। खेल टीमवर्क विकास में सहायक होते हैं साथ ही खेलों से आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। विधायक चंद्रभानुसिंह आक्या ग्राम भेरू सिंह खेड़ा में राणा पुंजा भील समाज नवयुवक मण्डल द्वारा आयोजित पांच दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों, आयोजकों व ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। आयोजक मण्डल के मदनलाल भील ने बताया की राणा पुंजा भील समाज नवयुवक मण्डल द्वारा ग्राम भेरू सिंह खेड़ा

में आयोजित पांच दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारम्भ कार्यक्रम भंवरसिंह खरडीबावड़ी, विशिष्ट अतिथि अनिल ईनाणी, पूर्व सरपंच रामेश्वरलाल धाकड़ व गोपाल भील आकोड़िया थे। पांच दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों का प्रदर्शन करेगी। उद्घाटन मेच फुसरिया व सादी के मध्य खेला गया। मेच से पूर्व विधायक आक्या ने खिलाड़ियों से परिचय लिया व बेंटींग करते हुए शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मदन भील, किशन भील, देवराज भील, रतन भील, नारायण भील सहित बड़ी संख्या में भील समाज के खेलप्रेमी, ग्रामीणजन व खिलाड़ी उपस्थित थे।

एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस ने दबिशा देकर विभिन्न जगहों पर पकड़े 17 वांछित अपराधी

बढ़ता राजस्थान

केकड़ी (संजय कटारिया)। केकड़ी शहर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न जगहों पर दबिशा देकर 17 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि पुलिस अपराधी शाखा जयपुर के



अतिरिक्त महानिदेशक व अजमेर आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी

के तहत अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी सोराजमल मीणा के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न टीमों का गठन किया गया तथा टीमों ने भट्टा बस्ती, काजीपुरा, सांसी बस्ती व ब्यावर रोड सहित कई जगहों पर दबिशा दी तथा 17 जनों

को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी के अनुसार खिड़की गेट निवासी मुकूल पुत्र अशुल गनी, सहरसा बिहार निवासी राहुल पुत्र गणेश सैनी, कणन पुत्र विनोद मंडल, काजीपुरा निवासी लाभचंद पुत्र मोडू लाल खटीक, विकास नगर केकड़ी निवासी अशोक पुत्र गोपाल, सुपौल बिहार निवासी विजय पुत्र किशारी मंडल, सहरसा निवासी रोशन पुत्र गणेश मल्हार, देवगांव

निवासी शोएब पुत्र आरिफ पठान, सरसडी निवासी प्रह्लाद पुत्र मांगीलाल योगी, तिवारी मोहल्ला केकड़ी निवासी माफिज पुत्र मुजाहिब देशवाली, भट्टा कॉलोनी निवासी अमन धोबी पुत्र भंवर धोबी, अजमेर निवासी कनिष्क पुत्र ओम प्रकाश यादव, सूरजपोल गेट निवासी शिवराज पुत्र गोवर्धन हरिजन सूरजपोल गेट निवासी प्रकाश पुत्र आजाद को गिरफ्तार किया है।

सेवा मिशन संस्था की पहल, एएसपी सिद्धांत शर्मा और डॉ. ओपी टांक ने बांटे किट

महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का होगा निस्तारण

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (बाबू अंसारी)। सेवा मिशन संस्था के सौजन्य से रविवार को यहां ज्योति नगर स्थित कठपुतली नगर कच्ची बस्ती में एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था अध्यक्ष तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एंट्री टास्क फोर्स) सिद्धांत शर्मा एवं राजस्थान कच्ची बस्ती महासंघ के संस्थापक वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. ओपी टांक ने जहरतमंदों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। डॉ. टांक के अनुसार कठपुतली नगर निवासी विधवा, तलाकशुदा, असहाय महिलाओं को एक-एक किट जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले आदि थे का वितरण किया गया। ये किट सभी महिलाओं को प्रति माह की 1 तारीख को निरंतर उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही महिलाओं की अन्य समस्याओं जैसे विधवा पेंशन, राशन कार्ड, बच्चों की पढ़ाई आदि के बारे में बताते हुए उनकी समस्याओं के समाधान किए जाने की बात कही। डॉ. टांक ने सभी के रके कार्य शुरू करवाने के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया। शिविर का आयोजन कठपुतली नगर विकास समिति द्वारा किया गया इस मौके पर विकास समिति अध्यक्ष डॉ. ओपी टांक, उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, महामंत्री गजानंद खैची सहित अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सिंचाई विभाग उद्यान के पास पिछले कई दिनों से पेड़ों की बलि चढ़ाने का काम

अज्ञात लोग दिन दहाड़े हरे भरे पेड़ों में आग दे रहे पेड़ों की बली, इस रहस्य को लेकर आम जन में असमंजस की स्थिति

बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागौर)। जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित सिंचाई विभाग उद्यान के पास बने घने जंगल में इन दिनों हरे पेड़ों में आग लगने की अजीब घटना सामने आ रही है। जिससे सैकड़ों बड़े वृक्ष धराशायी हो चुके हैं। प्रतिदिन सिंचाई विभाग उद्यान में घूमने आने वाले लोग दिनदहाड़े जल रहे पेड़ों को देखकर अचंभित हैं। लेकिन इस राशि का पताक्षेप नहीं हो पा रहा है। कौन है जो इन पेड़ों को आग लग रहा है और आग लगाने का क्या मकसद है? यह सवाल सबके जहन में लगातार बना हुआ है। लेकिन जो भी हो इस तरह से पेड़ों को जलाकर उनकी बलि देने से पर्यावरण का भारी नुकसान हो रहा है। बरसों पहले सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए इन विशाल वृक्षों में आग लगने से यहां अब सभी पेड़ समाप्त हो चुके हैं। जिससे पर्यावरण प्रेमियों में भी चिंता है। इस संबंध में पूर्व में प्रशासन एवं पुलिस को भी सूचना दी गई थी। लेकिन पेड़ जलाने वाले का पता नहीं चल पाया। पुराने लोग बताते हैं यहां आज से 3 साल पहले गनघोर जंगल था। लेकिन अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि आसपास रहने वाले लोग जलाने के लिए लकड़ी चाहते हैं और हरे पेड़ों को काटने पर कार्रवाई होती है ऐसे में पेड़ के तने में आग लगने से वह गिर जाता है और उसके बाद लकड़ी ले जाने पर इसका कोई विरोध नहीं रहता। शायद इसी कारण इन पेड़ों में आग लगाकर लकड़ी इकट्ठा की जा रही है।

दुल्हन की रविवार को टोंक सामूहिक सम्मेलन में होनी थी शादी

देर रात्रि को नैनवां से हो गई फरार, पिता ने कस्बाया अपहरण का मामला

बढ़ता राजस्थान

नैनवां (नि.स.)। शहर में एक युवती अपने मंडप के बाद से फरार हो गई। अपनी सगी दो बहिनो के साथ उसकी भी समाज का टोंक में आयोजित सामूहिक सम्मेलन में रविवार को शादी होनी थी। परिजनो ने पहले तो अपने स्तर पर युवती को ढूँढने का प्रयास किया। अथक प्रयास के बावजूद जब दुल्हन युवती का कई सुराग नहीं मिला। पीड़ित पिता अपने समाज के लोगों के साथ नैनवां पुलिस थाने पहुंचे। जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सारी घटनाक्रम की जानकारी देने के बाद पुलिस को नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी गई। दुल्हन युवती का अपहरण मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। पीड़िता पिता द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोपी विशेष समुदाय का होने पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती को सर्व कर दस्तावेज करने के लिए पुलिस टीम ने रवाना की गई।

शहर में बढ़ाया अतिरिक्त जाभा

दुल्हन का अपहरण होने का मामला ने तुल पकड़ा तो पुलिस अधिकारियों ने नैनवां पुलिस थाने पर करवर,देई,लाखेरी सहित बून्दी लाईन पुलिस से अतिरिक्त जाभा लगाया गया। दिन भर नैनवां पुलिस थाने पर डीएसपी राजूलाल मीणा,सहित अन्य थानो के अधिकारी मामले की समीक्षा में लगे रहे। बहला फूसला कर भागने का आरोप- थानाधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता पिता ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उसकी 22 वर्षीय युवती को बहला फूसला कर भाग ले जाने का परिवाद दिया गया था। पुलिस से बीएनएस की धारा 87 में मामला दर्ज कर लिया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग टीमो का गठन करके तलाशी के लिए भेज दिया है।

विदेश में फार्मिंग में निवेश के नाम पर महिला से ठगे 41 लाख

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। सांगरने सदर थाना इलाके में विदेश में फार्मिंग में निवेश करने पर मोटा मुनाफे का झांसा देकर एक महिला से 41 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार गुलमोहर गार्डन भाटावाला निवासी संतोष कुमारी ने मामला दर्ज करवाया कि तंजानिया में फार्मिंग के कार्य में निवेश करने पर मोटा मुनाफे का झांसा देकर उससे डोली कोठारी व अन्य ने कई बार में 41 लाख रुपये ले लिए। रुपये लेने के बाद आरोपी कुछ दिन तक बहाना बनाते रहे और फिर रुपए और लाभांश लौटाने में आनाकानी करने लगे। इस पर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।

5 फरवरी से शुरू होंगे शिविर, जिला कलक्टर ने की शिविर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

बढ़ता राजस्थान

बूंदी, (नि.स.)। राजस्थान में सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे लेकर किसानों को बेहतर जीवन मिले। इस कड़ी में एग्रीस्टेक योजना अंतर्गत बूंदी जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से शिविर आरम्भ होंगे। एग्रीस्टेक योजना अंतर्गत जिला बूंदी में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई जाएगी। जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने कहा कि एग्रीस्टेक योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एक विजनरी कदम है। यह किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल साबित होगी। अभियान के तहत 5 फरवरी से जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषक पंजीयन का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में एक आईडी हेतु पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड,



जमाबंदी, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर साथ लेकर आना होगा। उक्त दस्तावेजों के आधार पर कृषक की पहचान सुनिश्चित कर आवश्यक दस्तावेजीकरण एवं कृषक के पुष्टीकरण के बाद किसानों को यूनिक आईडी जनरेट कर एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल पर निर्धारित समयवधि में उपलब्ध करा दी जाएगी। जिससे किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं

पारदर्शिता आएगी। सभी अधिकारी इसके लिए किसानों को आईडी बनवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही शिविरों के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान आईडी बनवाने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, छाया व पेयजल, हेल्प डेस्क, ई मित्र, सुरक्षा के महेनजर पुलिस जाब्ता, आदि की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित तहसीलदार शिविर आयोजन से पूर्व संबंधित पंचायतों में माईकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं। साथ ही कृषकों से सीधे संपर्क रखने वाले राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से किसानों प्रेरित कर शिविर तक लाएं। शिविरों में ऊर्जा, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहकर उनकी विभागीय योजनाओं से किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करें। जिला कलक्टर

11 अंकों की प्रदान की जायेगी आईडी

अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाइल नम्बर की जरूरत होगी। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने, प्रधानमंत्री किसान-मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी होगी।

5 फरवरी को यहां आयोजित होंगे शिविर

कृषकों को विशिष्ट फार्मर आईडी जारी करने के लिए 5 फरवरी से शिविरों का आयोजन होगा। इसके तहत 5 से 7 फरवरी तक तहसील रायथल की ग्राम पंचायत खटकड़, बूंदी में सिलोर, तालेडा में बरूहन, हिण्डोली में सधूर, केशवरायपाटन में चितावा, इन्द्रगढ़ में मोहनपुरा तथा नैनवां में बांसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाए जाएंगे। शिविर सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित होंगे।

ने बताया कि इस अभियान को जिले में सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारियों, विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रति तहसील एक-एक ग्राम पंचायत में तीन दिन शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक प्रति तहसील में 2-2 ग्राम पंचायत (चार ग्राम पंचायत प्रति तहसील प्रति सप्ताह) एवं 17 फरवरी से 31 मार्च तक 5-5 ग्राम पंचायत प्रति तहसील (10 ग्राम पंचायत प्रति तहसील प्रति सप्ताह) कैम्प लगाये जाएंगे। बैठक में उपखंड अधिकारी बूंदी एचडी सिंह, हिण्डोली एसडीएम शिवराज मीणा, लाखेरी एसडीएम भावना सिंह, केपाटन एसडीएम दीपक खटाना, तालेडा एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कृषि, चिकित्सा, सहकारिता एवं जिला परिषद के अधिकारी मौजूद रहे।

शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई आरएस (प्रारम्भिक) परीक्षा

जिला कलक्टर और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाएं रही चाक-चौबंद

बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागौर)। आरएस (प्रारम्भिक) परीक्षा का आयोजन रविवार को जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। परीक्षा के दौरान समस्त व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही तथा सुरक्षा को लेकर उल्लूक व्यवस्थाएं की गई ताकि परीक्षा निर्विघ्न सम्पन्न हो सके। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से सभी केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालमुकुंद असावा, एसपी मनोप त्रिपाठी, एडीएम नरेश बुनकर परीक्षा प्रारंभ कर रहे थे। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मौके



पर पुलिस टीम और कार्मिकों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। पुलिस की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सर्वोत्कृष्ट इंतजाम किए गए ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी भी न हो

और परीक्षा भी शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो। डीएम-एसपी ने बालकृष्ण विद्या भवन राठमाफि कांकरोली, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली, आलोक स्कूल, सुभाष पब्लिक स्कूल, सेठ रंगलाल कोठारी महाविद्यालय सहित कई केंद्रों पर यह सुनिश्चित किया कि कोई चूक न हो एडीएम नरेश बुनकर ने बताया कि जिले में आरएस (प्रारम्भिक) परीक्षा को लेकर कुल 17 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर कुल 5314 परीक्षार्थियों को उपस्थित होना था, जिनमें से 3343 उपस्थित हुए तथा 1970 अनुपस्थित रहे। ऐसे में कुल उपस्थिति 62.91 प्रतिशत रही। जिला कलक्टर और एसपी द्वारा निरंतर कार्मिकों की बैठकें लेकर एवं संवाद कर यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी कोई कम्यूनिकेशन गैप न हो और यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो।

राष्ट्र हित को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

राज्यपाल ने श्री हरखचंद नाहटा स्मृति स्मारक सिक्के का अनावरण किया

बढ़ता राजस्थान

जयपुर/बीकानेर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक देश को श्रेष्ठतर बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। राज्यपाल रविवार को बीकानेर में श्री हरखचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति में जारी 25 रुपए मूल्य के 40 ग्राम वजन स्मारक सिक्के के अनावरण समारोह में संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि श्री नाहटा ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र के साथ जन सेवा तथा धर्म सेवा के कार्यों में भी अतुल्ययोग योगदान दिया। देश को कई सुप्रतिष्ठित संस्थाओं से संबंध रखकर वे लोक मंगल कार्यों में निरंतर आर्थिक सहयोग के अलावा सक्रिय सहभागिता निभाते थे। जैनाचार्य श्री जिनपीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज के सान्निध्य में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा श्री



हरखचंद नाहटा की स्मृति में स्मारक रजत सिक्का जारी करना जीवन को आलोक देने वाले महापुरुषों के सम्मान की परम्परा है। उन्होंने कहा कि समय तथा इतिहास की कसौटी पर ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। श्री हरखचंद नाहटा के जीवत व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता तथा लोक मंगल की बलवती भावना ने उन्हें सान्निध्य में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा श्री

समर्थ रामदास के व्यक्तित्व से जुड़े उदाहरण दिए और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान देने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने में भी भागीदारी निभाएं। इस दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने स्मारक सिक्के का अनावरण किया तथा यह सिक्का नाहटा परिवार के छोटे बच्चों को आशीर्वाद के साथ सौंपा।

विप्र फाउंडेशन के राजस्थान के प्रदेश मंत्री महेश जोशी ने केन्द्रीय बजट 2025 की सराहना की

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। विप्र फाउंडेशन के राजस्थान प्रदेश मंत्री महेश जोशी ने 2025 के केन्द्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे देश के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है, विशेषकर मिडिल क्लास, व्यापारी, किसान और युवा। महेश जोशी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे मिडिल क्लास से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे वे अपने भविष्य के लिए अधिक बचत कर सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा, 'इस बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल

नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का एक सशक्त साधन है। महेश जोशी ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं, जैसे सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और किसानों को आर्थिक सहायता, से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। युवाओं के रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप के लिए कर राहत और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों से छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे उनके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि होगी। अंत में, महेश जोशी ने कहा, 'इस बजट आने वाले वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत

मौल का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान होगा, बल्कि यह हमारे देश के समग्र विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगा।



युवक का अपहरण कर मारपीट कर लूटपाट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार



बताया कि पीड़ित के पास एक अनजान नम्बर से कॉल आया। कॉल कर्ता ने कहा कि एक डीपीसी का काम करना है। इस पर वह व्यक्ति के बताए जगह पर पहुंचा। वहां से वह युवक को लेकर बालाजी सिटी पहुंचा तो वहां पर उसे तीन युवक राकेस, अजय और सुखविंद सिंह मिले। तीनों ने उसे जबरन कार में पटक लिया और उसके साथ मारपीट कर कार में प्रयुक्त एक चोपहिया और एक दुपहिया वाहन जब्त किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि बिंदायका थाना ने कार्रवाई करते हुए काम के बहाने बुलाकर एक युवक का अपहरण कर मारपीट कर नगदी-बाइक व मोबाइल छीनने वाले तीन बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए रुपये,एटीएम कार्ड ,मोबाइल ब्रामद किया है और साथ ही वारदात में प्रयुक्त एक चोपहिया और एक दुपहिया वाहन जब्त किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि बिंदायका थाना ने कार्रवाई करते हुए काम के बहाने बुलाकर मूलचंद रंगराम विहार कॉलोनी निवासी का अपहरण कर मारपीट कर नगदी-बाइक व मोबाइल छीनने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा ने बताया ने

2 जोड़े बने एक दूजे के हमसफर समाज के प्रबुद्धजनों ने दिया आर्शिवाद

दक्ष प्रजापति समाज का सामूहिक सम्मेलन का हुआ आयोजन



नव जोड़ो के आर्शिवाद समारोह में समाज के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। माटी कला बोर्ड से जुड़े पदाधिकारियों ने नव जोड़ो को मिट्टी के बर्तन भेंट किये। सामूहिक सम्मेलन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 12 जोड़ो का विधि विधान से पाणिग्रहण संस्कार करवाया गया। इससे पूर्व तोरण की रम का आयोजन किया गया। इसके बाद विवाह सम्मेलन स्थल छात्रवास में आर्शिवाद समारोह का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष दिलखुश पोटर ने बताया कि नव जोड़ो के आर्शिवाद समारोह में समाज के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। माटी कला बोर्ड से जुड़े पदाधिकारियों ने नव जोड़ो को मिट्टी के बर्तन भेंट किये। सामूहिक सम्मेलन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 12 जोड़ो का विधि विधान से पाणिग्रहण संस्कार करवाया गया। इससे पूर्व तोरण की रम का आयोजन किया गया। इसके बाद विवाह सम्मेलन स्थल छात्रवास में आर्शिवाद समारोह का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष दिलखुश पोटर ने बताया कि

चीनी से दांत होते हैं खराब मीठी चीजों से बना लें दूरी



मिठाई मत खाओ, तुम्हारे सारे दांत सड़ जाएंगे एक वाक्यांश है जिसे आपने बचपन में सुना होगा। यदि आप पेरेंट्स हैं, तो आपने यह कहा भी होगा। वास्तव में, बहुत अधिक चीनी खाने से दांतों को काफी नुकसान होता है, इसलिए इस तरह की सलाह दी जाती है। लेकिन, इन तमाम चेतावनियों के साथ क्या आपने कभी सुना है कि चीनी इतनी हानिकारक क्यों हो सकती है? चीनी हमारे द्वारा खाए जाने वाले बहुत सारे फूड्स और ड्रिंक्स का हिस्सा है। इसलिए आपको जितना हो सके इससे बचना चाहिए।

दांतों में कैविटी कैसे बनती है

क्या आप जानते हैं कि आपका मुंह बैक्टीरिया से भरा होता है? यह बिल्कुल सच है। कुछ आपके मुंह के लिए अच्छे होते हैं। अन्य, थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया चीनी और कार्बोहाइड्रेट पर बढ़ते हैं, जिन्हें स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही, ये एसिड बनाते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बदल सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दो तरह से काम करता है। सबसे पहले, ये इनेमल (आपके दांत की चमकदार बाहरी परत) को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, अगर इलाज नहीं किया जाए, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैविटी में बदल जाते हैं। ये आपके दांतों की गहरी परतों में चले जाते हैं और होल बनाते हैं, जिससे दर्द होता है और दांतों को नुकसान हो सकता है।

चीनी का सेवन भरे दांतों पर कैसे असर करता है

चीनी निश्चित रूप से दांतों के खराब होने की सबसे आम वजह है। यह मुंह में बैक्टीरिया और सलाइवा के संपर्क में आती है और प्लाक का कारण बनती है।

प्लाक पर चीनी की क्रिया एसिड का उत्पादन करना और दांतों के इनेमल युक्त कैल्शियम को गलाना होता है।

मुंह के अन्य हिस्सों पर इसका क्या प्रभाव होता है

चीनी न केवल दांतों को प्रभावित करती है, बल्कि इसकी एसिडिक प्रकृति और प्लाक युक्त बैक्टीरिया के इकट्ठा होने के कारण मसूड़ों की बीमारी हो सकती है। चीनी के ज्यादा और रेगुलर सेवन से, मसूड़ों की बीमारी ब्लीडिंग, फूलें और सूजे हुए मसूड़ों और यहां तक कि शुरुआत में सांसों को बदबू के रूप में दिखाई देती है। ज्यादा और रेगुलर प्रोसेस्ड चीनी शरीर में लगभग हर प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

चीनी के अन्य रूपों का दांतों पर क्या असर होता है?

नेचुरल चीनी भी वही प्रभाव पैदा कर सकती है, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन, फाइबर से भरपूर फल भले ही मीठे हों, उनमें खुद की क्लीनिंग करनी की क्षमता होती है, जो दांतों को नुकसान को सीमित करते हैं।

क्या यह डेमेज रिवर्सिबल होता है

चीनी से होने वाली डेमेज शुरू में सीमित होते हैं और नेचुरल सलाइवा में इसके एसिडिक प्रभावों को बेअसर करने के लिए मिनरल्स होते हैं। इसलिए थोड़ी मात्रा में चीनी का सेवन करने के बाद कुल्ला या ब्रश करने से दांतों या शरीर के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन, खराब हाइजीन उपायों से काफी नुकसान हो सकता है।



क्या इससे बचने के कोई उपाय हैं

- अगर आप चीनी का सेवन कम नहीं कर सकते हैं, तो सही तरीके से ब्रश करना और हाइजीन आदतों को अपनाना जरूरी होता है।
- चीनी या किसी भी भोजन को खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना या पानी पीना दांतों की समस्याओं को रोकने के लिए सबसे अच्छी आदत है।
- प्लाक के निर्माण को रोकने के लिए दांतों के बीच फंसे खाने को साफ करने के लिए फ्लॉसिंग करें।
- मिठाई का सेवन सीमित करना विशेष रूप से चीनी युक्त जूस या ड्रिंक अच्छा होता है।



काँफी को कैसे बनाएं सुपर हेल्दी



जिस में हृदय रोगों के होने की संभावना भी कम हो जाती है। कोकोआ एड करने से आपकी काँफी का फ्लेवर और अधिक बढ़ जाता है, इससे स्वाद भी दोगुना हो जाता है। इसे शामिल करने से आप थुगर एड करने से भी बच सकते हैं जिससे आपकी काँफी और अधिक हेल्दी बनेगी।

आर्टिफिशियल क्रीमर का प्रयोग न करें

आर्टिफिशियल क्रीमर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और इनमें कुछ हानिकारक तत्व भी मिले होते हैं इसलिए यदि आप काँफी को पतला करने के लिए इन क्रीमर का प्रयोग न करें। उसकी जगह दूध का प्रयोग करें।

काँफी में कुछ कोकोआ पाउडर डालें

कोकोआ में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं और यह आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

काँफी हमें बहुत अधिक एनर्जी प्रदान करती है इसलिए बहुत से लोग इसे थके होने पर या कुछ भी काम करने पर जरूर पीते हैं। बहुत से लोग जो तीनों समय इसे पीते हैं उनके मन में अक्सर संशय रहता है कि काँफी पीना सही है या गलत। कहीं हम अपने शरीर को ज्यादा काँफी पीने से और अधिक अनहेल्दी तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर आप काँफी को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यह आपके शरीर के लिए सबसे बेहतर ड्रिंक हो सकती है। परंतु सवाल यह है कि आप कैसे काँफी को हेल्दी बना सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ जरूरी निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। तब आप काँफी को बिना किसी अफसोस के, चाव से पी सकेंगे।

काँफी में अधिक थुगर न डालें

बहुत से लोग काँफी को स्वादिष्ट बनाने के लिए भर भर के चीनी का प्रयोग करते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीनी हमारे स्वास्थ्य को दुश्मन होती है और अगर आप इतनी अधिक चीनी खा रहे हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए आपको चीनी केवल एक छोटी चम्मच ही लेनी चाहिए।

बहुत ज्यादा काँफी न पिएं

अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा काँफी पी लेते हैं तो इससे इसके सारे स्वास्थ्य लाभ जीरो हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि काँफी आपके शरीर को हानि न पहुंचाए तो आपको काँफी को केवल सीमित ही मात्रा में पीना चाहिए। आप केवल एक दिन में दो कप काँफी ही पी सकते हैं, इससे अधिक हानिकारक होगी।

दोपहर दो बजे के बाद न पिएं काँफी

काँफी में कैफीन होता है जो आपको अधिक एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए अगर आप दोपहर के बाद इसे पीते हैं तो आपको अधिक एनर्जी मिलती है। जिस कारण आप सो भी नहीं पाएंगे और अगर

अच्छी नींद नहीं आती है तो बहुत सी स्वास्थ्य समस्या जन्म ले लेती हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको कभी दो बजे के बाद काँफी नहीं पीनी चाहिए।

किसी अच्छे ब्रांड की काँफी ही पिएं

काँफी का ब्रांड भी काँफी की क्वालिटी बदलता रहता है। अगर आप ऐसे बचाने के चक्कर में कोई सस्ती और बेकार काँफी खरीद लेते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होता है क्योंकि काँफी बीन्स पर बहुत अधिक कीटनाशकों और केमिकल का छिड़काव होता है। जिस कारण यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। इसलिए एक अच्छे और प्रसिद्ध ब्रांड की काँफी ही खरीदें।

अपनी काँफी में थोड़ी दालचीनी भी शामिल कर लें

दालचीनी आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करती है और यह डायबेटिक लोगों के लिए लाभदायक होती है। इसलिए अगर आप दालचीनी को अपनी काँफी में एड करते हैं तो वह और अधिक फ्लेवर के साथ टेस्टी तो बनेगी ही साथ में यह आपके लिए और ज्यादा लाभदायक और सेहतमंद भी होगी।

अधिक पपीता का सेवन स्किन को पहुंचा सकता है नुकसान, पपीता खाने के दुष्परिणाम



पपीता के गुणों से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। वेट लॉस करने से लेकर स्किन केयर रूटीन फॉलो करने वाले लोग पपीता का सेवन करते हैं। पपीते में मौजूद पोषक तत्व वजन को कम करने के साथ-साथ पाचन को दुरुस्त करने में लाभकारी माने जाते हैं। लेकिन माना जाता है कि जरूरत से ज्यादा पपीता का सेवन करना भी नुकसानदेय हो सकता है? जी हां, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करना सेहत के लिए हमेशा नुकसानदेय ही रहा है। पपीता भी ऐसी ही चीजों में शामिल है। यह कई पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन अगर आप अति से ज्यादा इसका सेवन करते हैं, तो यह फायदा पहुंचाने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही पपीता का सेवन करें।

स्किन के लिए है हानिकारक : पपीता स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसमें पपैन नामक एंजाइम मौजूद होता है, जिसका अधिकतर इस्तेमाल स्किन केयर क्रीम को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यह एंजाइम सभी टाइप के स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर किसी को इस एंजाइम से एलर्जी है, तो उनके स्किन पर रैशज और जलन की शिकायत हो सकती है। इसलिए पपीता का सेवन सीमित मात्रा में ही करना आपके स्किन के लिए बेहतर होता है।

बढ़ा सकती है रेस्पिरटरी एलर्जी : पपीता में मौजूद पपैन नामक एंजाइम एक शक्तिशाली एलर्जीन है। अगर आपको किसी तरह की श्वास संबंधी समस्या है। उदाहरण के लिए अस्थमा, एलर्जी तो इसका सेवन सावधानी पूर्वक करें। अगर आप काफी ज्यादा पपीता खाते हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अधिक पपीता खाने से अस्थमा, घबराहट और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

हार्ट बीट कर सकता है धीमा : दिल से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित लोगों को पपीते के अधिक सेवन से बचना चाहिए। अधिक पपीते के सेवन से आपके दिल की धड़कनों को दर अनिश्चित रूप से कम होती है। इसके साथ ही यह दिल से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई परेशानी है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

बढ़ सकती है पेट की समस्या : अति से ज्यादा पपीते का सेवन करने से हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम प्रभावित होता है। इसके कारण पेट में गैस, जलन जैसी समस्या बढ़ सकती है। दरअसल, पपीते में फाइबर की अधिकता होती है। अधिक फाइबर का सेवन पाचन को प्रभावित करता है। जिसके कारण कब्ज, एसिडिटी और दस्त की शिकायतें हो सकती हैं।

गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदेय : इस बात से शायद आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि गर्भवती महिलाओं को पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पपीता का सेवन करने से गर्भवती के भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल, पपीते में लेटेक्स की अधिकता होती है, जिसके कारण गर्भाशय सिकुड़ने की संभावना होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद पपैन एंजाइम के विकास की दिशा में नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पपीता का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।

लो ब्लड शुगर : हाई ब्लड शुगर रोगियों के लिए पपीता का सेवन फायदेमंद हो सकता है। लेकिन लो ब्लड शुगर रोगियों के लिए पपीता का अधिक सेवन

पीठ के निचले हिस्से में दर्द (लोअर बैक पेन) से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

पीठ के निचले हिस्से में दर्द काफी दर्दनाक हो सकता है। लोग सोचते हैं कि यह दर्द केवल वृद्धावस्था में होता है पर ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र में व्यक्ति इस दर्द का शिकार हो सकता है। बता दें कि यह दर्द कैल्शियम की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी, गर्भाशय में सूजन, विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। अगर दर्द का पता शुरू में लगा जाए तो लापताही न बरते। शुरुआत में इस दर्द को घरेलू उपायों से दूर किया जा सकता है।



तुलसी का प्रयोग : पीठ के निचले हिस्से के दर्द को दूर करने में तुलसी आपके बेहद काम आ सकती है। ऐसे में तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालें और जब पत्तियों का रस पूरी तरह से पानी में मिल जाए। तब गैस से उतारकर मिश्रण को ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसमें नमक मिलाएं और उसका सेवन करें। ऐसा करने से पीठ के निचले हिस्से का दर्द दूर हो जाएगा।

लहसुन का प्रयोग : लहसुन के माध्यम से भी दर्द को दूर किया जा सकता है। ऐसे में लहसुन की कलियों का सेवन खाली पेट कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन के तेल से भी इस दर्द को दूर किया जा सकता है।

अदरक का प्रयोग : अदरक के माध्यम से इस दर्द को दूर किया जा सकता है। अदरक से बना पेस्ट प्रभावित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा अदरक के पेस्ट के ऊपर नीलगिरी के तेल से भी ज्यादा प्रभाव होता है। अगर दूसरे उपचार की बात करें तो पानी में उबाल

आने तक अदरक के टुकड़े डालें और जब अदरक का रस उस पानी में घुल जाए तो छानकर ठंडा कर लें। अब उस पानी में शहद मिलाएं और उसका सेवन करें।

दूध का उपयोग : दूध के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे में दूध के सेवन से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। कभी-कभी पीठ के निचले हिस्से में दर्द कैल्शियम की कमी से होता है। ऐसे में नियमित रूप से दूध का सेवन करें। दूध में शुगर की बजाय आप शहद को मिलाएं और उसका सेवन करें। दर्द में आराम मिलेगा।

बर्फ की सिकाई : प्रभावित स्थान पर बर्फ की सिकाई एक बेहतर विकल्प है। लेकिन डायरेक्ट बर्फ लगाना नुकसान देह भी हो सकता है। ऐसा करने से दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में सूजन को दूर करने के लिए बर्फ को एक कपड़े में लपेटें और प्रभावित स्थान पर 10 से 15 मिनट के लिए रखें।

Child Care : बच्चों को सेब खिलाने के फायदे

बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। बच्चों के विकास के लिए उन्हें समय-समय पर न्यूट्रीएंट्स मिलते रहने से उनका विकास तेजी से होता है।

हड्डियों को बनाए मजबूत : बच्चों को सेब खिलाने से उनकी हड्डियों का विकास होता है। सेब खाने से बोन डेंसिटी बढ़ती है। बच्चे अक्सर खेलते कूदते रहते हैं। ऐसे में खेलते समय गिरने से या उछलने से उनमें फ्रैक्चर और मोच आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए उन्हें सेब खिलाना बहुत फायदेमंद होता है। सेब में एंटी इनफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं, जो बोनस के लिए अच्छे होते हैं।

आंखों की रोशनी बढ़ाए : आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सेब अहम भूमिका निभाता है। सेब खाने से बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ती है। कुछ बच्चों को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। उन्हें तो खासतौर पर सेब खिलाना चाहिए। सेब में फ्लेवोनॉयड्स, एंटीऑक्सिडेंट और फाइटोयूट्रीएंट्स पाए जाते हैं। जो आंखों पर प्रो रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर आंखों की बीमारियों से बचाते हैं।


पाचन तंत्र को रखे स्वस्थ : सेब फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। फाइबर रिच फूड खाने से पाचन हमेशा स्वस्थ रहता है। बच्चों का डाइजैस्टिव सिस्टम हेल्दी रखने के लिए उन्हें दिन में एक सेब जरूर खिलाना चाहिए। इससे उनमें कॉस्टिपेशन की भी समस्या नहीं होती। अच्छा डाइजैस्टिव सिस्टम होने से बच्चों में न्यूट्रीएंट्स अच्छे से अवशोषित होते हैं, जिससे बच्चों का विकास तेजी से होता है।

मोटापे को दूर करे : बच्चों में मोटापा उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मोटापे से बच्चों का हृदय स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बच्चों में दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों का मोटापा दूर करना हो तो उन्हें दिन में एक सेब जरूर खिलाएं। हाई फाइबर फूड होने से सेब खाने पर बच्चों का भूख कम लगती है। साथ ही बच्चों का हृदय स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और

शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है। यह बच्चों के फैट को घटाने में सहायक होता है।

ब्रेन डेवलपमेंट : सेब खाने से बच्चों में दिमाग का विकास होता है। यह बच्चों की मेमोरी को बढ़ाता है। सेब खाने से बच्चों में चीजें जल्दी भूलने की आदत छूट जाती है। सेब में पाए जाने वाला क्वेरसेटिन दिमाग को तेज बनाता है और दिमाग को कोशिकाओं को प्रोटेक्ट भी करता है। दिमाग के





पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, 5 की मौत

सुरक्षाबलों के वाहन को निशाना बनाया, मृतकों में एक आम नागरिक भी शामिल

पेशावर | बढ़ता राजस्थान

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। आतंकीयों ने पैरामिलिट्री फोर्स के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। मृतकों में 4 सुरक्षा कर्मी और एक आम नागरिक शामिल हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला डेरा इस्माइल खान जिले के दारवान तहसील में हुआ, जो अफगानिस्तान से सटे दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक करिजात लेवीज बल के जवान एक चोरी हुए ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे, तभी आतंकीयों ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कल बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के हमले में कम से कम 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने बयान जारी कर बताया कि इस मुठभेड़ में 12 आतंकवादियों की भी मौत हो गई है। पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान में अलग-अलग अभियानों में कुल 23 आतंकवादियों को मारने में सफलता मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का जिम्मेदार बलूच लिबरेशन आर्मी को माना जा रहा है।

मोदी बोले- भारत-इंडोनेशिया का रिश्ता राम और बुद्ध का

हम हजारों साल के इतिहास से जुड़े; वर्चुअली जकार्ता के महाकुंभभिषेक में शामिल हुए

जकार्ता | बढ़ता राजस्थान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वर्चुअली इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सनातन धर्म आलम के महाकुंभभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री जोको विडोडो भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरगन मंदिर के महाकुंभभिषेक में शामिल हो सका हूँ। राष्ट्रपति प्रबोवो की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किमी दूर हूँ, पर मेरा मन इस आयोजन के उठने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं हैं। हम हजारों साल पुराने संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। हमारे रिश्ते विरासत, ज्ञान, विश्वास और साझी आस्था, अद्वैतता का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन, भगवान राम और भगवान बुद्ध का है। भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई इंसान जब प्रन्वान मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार मंदिर जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। जब भारत के लोग इंडोनेशिया की काकावीन रामायण के बारे में सुनते हैं तो उनमें वाल्मीकि और कम्ब रामायण जैसी भावना जागती है।

4 मई को खुलेंगे ब्रद्रीनाथ मंदिर के कपाट

नई दिल्ली | बढ़ता राजस्थान

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ब्रद्रीनाथ मंदिर के पवित्र कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर में पूर्व टिहरी राज दरवार में विशेष पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खुलने का समय तय किया गया। गणेश पंचंग और चौकी पूजन के बाद राज पुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने ब्रद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय की। इस दौरान टिहरी के पूर्व महाराजा मानचंद्र शाह, लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, ब्रद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी, ब्रद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल और कई अधिकारी मौजूद थे। 17 नवंबर 2024 को ब्रद्रीनाथ के कपाट पंच पूजा के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। पिछले साल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान अकेले ब्रद्रीनाथ धाम में 14 लाख 25 हजार से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए थे।

बीआर चोपड़ा ने मुझे धमकाया था, बकाया पैसा मांगने पर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंकने की दी थी धमकी : अमोल पालेकर

जयपुर | बढ़ता राजस्थान

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन रविवार को बॉलीवुड एक्टर अमोल पालेकर ने अपने सेशन अमोल पालेकर: द व्यू फाईंडर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने फिल्म निर्देशक बीआर चोपड़ा से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। जिसमें बकाया पैसा मांगने पर चोपड़ा ने अमोल को इंडस्ट्री से बाहर फेंक देने की धमकी दी थी। अमोल ने जवाब में कहा था- फिल्म इंडस्ट्री आपका बंगला नहीं, मैं यहाँ अपने दम पर टिका हूँ। मामला फिर भी ठंडा नहीं हुआ था। बात आगे बढ़ती गई थी। अमोल ने भी धरती नहीं मानी और मामला कोर्ट तक ले गए। उन्हें जीत मिली। ब्याज के साथ 5 गुना पैसा वापस हुए तो उन्होंने पूरी राशि दान कर दी थी।

मोल पालेकर ने अपने सेशन के दौरान कई किस्से शेयर किए, जिनमें बाला साहब ठाकरे से बातचीत और बी.आर. चोपड़ा के साथ हुए एक विवाद और इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया- बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कंपनी ने उन्हें 40,000 रुपये देने थे, लेकिन फिल्म की रिलीज तक वह पैसे नहीं मिले। जब उन्होंने इस बारे में बात की और एक लिखित आश्वासन मांगा, तो इंडस्ट्री में इसे चुनौती देने जैसा माना गया।

राजस्थान में आया भूकंप, बीकानेर में धरती हिली

72 किलोमीटर दूर जसरासर में रहा केंद्र; सहम गए लोग, एक-दूसरे को कॉल किया

बीकानेर | बढ़ता राजस्थान


बीकानेर में रविवार दोपहर 12.58 बजे भूकंप का झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 72 किलोमीटर दूर जसरासर के महारामसर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 थी। अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और एक-दूसरे को कॉल

किया। अब तक कहीं से भी किसी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं है। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में रहने वाली मीनाक्षी ने बताया कि अचानक सब कुछ हिल गया था। रामकुमार हर्ष ने बताया कि उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नांखा और लुणकरणसर में भी भूकंप का एहसास हुआ है। जलदाय विभाग के कर्मचारी श्याम नारायण रांग ने बताया कि शहर में कई जगह झटके महसूस हुए हैं। सीसीटीवी

कैमरे में भी धरती हिलने का नजारा कैद हुआ।

भूकंप क्यों आता है

हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में



नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की है और इस डिस्टेंस के बाद और निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टेंस के बाद भूकंप आता है।

हिंदुत्व राजनीतिक हथियार, यह हिंदुइज्म को सीमित करता है कुंभ जैसी जगह पर वीआईपी को नहीं जाना चाहिए : शशि थरूर

बढ़ता राजस्थान

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन सांसद-लेखक शशि थरूर ने कहा- हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग-अलग चीजें हैं। मैंने हिंदू धर्म की जितनी किताबें पढ़ी हैं, उनसे हिंदुत्व से कोई मेल नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है। हिंदुत्व, हिंदुइज्म को सीमित करता है। यह हिंदुइज्म को एक ईश्वर, एक मंदिर, एक नेता से लेकर एक देश, एक चुनाव तक में सीमित करता है। जब इंडिया अलायंस बना था, तब भी यह साफ था कि यह राज्यों में काम



नहीं करेगा। दिल्ली में हम लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर साथ थे, अब नहीं हैं। यह राज्यों के पॉलिटिकल कैरेक्टर पर निर्भर करेगा। इसलिए न इंडिया अलायंस का मसिया पढ़ा जाना चाहिए, न इस बात का जश्न मनाया जाना चाहिए कि अब इंडिया अलायंस के दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं।

राजस्थान में आज से फिर बारिश का अलर्ट

भरतपुर में सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाकर सोई महिला की जलने से मौत



बढ़ता राजस्थान

जयपुर। राजस्थान में मौसम में फिर से बदलाव शुरू हो गया। राजस्थान के कई शहरों में दोपहर को हल्के बादल छाए और धूप कमजोर रही। इससे दिन के तापमान में गिरावट हुई और दिन में हल्की ठंडक रही। भरतपुर के भुसावर में अलाव जलाकर सोई महिला की जलने से मौत हो गई। अब मौसम केन्द्र जयपुर ने 3 फरवरी से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उसके प्रभाव से 3-4 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में मेघजर्जा के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान बताया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई शहरों में दोपहर बाद हल्के बादल छाए। जयपुर, सीकर, अलवर में मौसम के बदलाव से यहां दोपहर बाद हल्की ठंडी हवा चली और ठंडक बढ़ गई।

चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा तापमान

सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। धौलपुर में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस, झंझारपुर में 28.5, उदयपुर में 27.2, भीलवाड़ा में 27.4, अजमेर में 26.3, कोटा में 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं, सीकर में

24.5, जैसलमेर में 25.2, जोधपुर में 27.4, गंगानगर में 24.1 और जयपुर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हनुमानगढ़, माउंट आबू में कल दिन में ज्यादा सर्दी रही, यहां का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा।

सुबह-शाम की सर्दी भी बढ़ी

राजस्थान में दिन के साथ-साथ सुबह-शाम के तापमान में भी गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई। कल भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, सीकर, गंगानगर, झंझारपुर, सिरौही, जालोर, करौली, फतेहपुर, अलवर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया। कल सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज हुआ।

अब आगे क्या?

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने आज भी प्रदेश के तापमान में थोड़ी गिरावट होने और सर्दी में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 3-4 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के अलावा भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

सीएम बोले-ईआरसीपी योजना लागू होने के बाद जमीनें सोना उगलेंगी: किसान सभा को किया संबोधित, जगदीश धाम के विकास के लिए टीम गठित

बढ़ता राजस्थान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सभा में कहा कि ईआरसीपी योजना का लाभ मिलने के बाद किसानों की जमीनें सोना उगलेंगी। राजस्थान को पेयजल की समस्या से भी निजात मिलेगा। मुख्यमंत्री रविवार को करौली के टोडाभीम के नादौती उपखंड स्थित कैमरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे दोपहर 1 बजे कैमरी हेलीपैड पर पहुंचे थे। सीएम ने यहां किसान सभा को संबोधित किया। इससे पहले सीएम ने श्रीजानकपुर मंदिर में भगवान जगदीश के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और देश प्रदेश क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। जगदीश जी महाराज के पांच दिवसीय विशाल मेले का बसंत पंचमी के अवसर पर समापन हुआ। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए।



सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। ग्रामीणों की मांग पर सीएम ने जगदीश धाम मंदिर के विकास के लिए टीम गठित कर विकास करने, पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने

और छात्रावास निर्माण की घोषणा की। सीएम भजनलाल ने 30 मिनट तक किसान सभा को संबोधित किया। सभा में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, करौली भाजपा जिला अध्यक्ष शिवकुमार सेनी, हिंडीन की पूर्व विधायक



राजकुमारी जाटव, सांसद प्रत्याशी इंदु जाटव, भाजपा प्रत्याशी रामनिवास मीणा, टोडाभीम मंदिर ट्रस्ट के महंत मनोज कुमार, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती सहित कई

जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जानिए क्या है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट

9 जिले और 3 संभाग रह होने के बाद ईआरसीपी योजना का लाभ

जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बुंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ब्यावर, कोटपतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और डींग जिलों को मिलेगा।

भाजपा पहले झुगगी वालों को 3 हजार देकर फर्जी वोट डलवाएगी, फिर जेल भेजेगी : केजरीवाल

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के झुगगी में रहने वाले लोगों के लिए वीडियो सेंसज जारी किया। इस वीडियो में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा झुगगी वालों को पहले 3 हजार देकर फर्जी वोट डलवाएगी, फिर उन्हें जेल भेज देगी।

केजरीवाल ने कहा- भाजपा झुगगी में रहने वाले लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। पूर्व सीएम ने ये भी कहा- बीजेपी झुगगीवासियों को 3 हजार देकर फर्जी वोट डालने के लिए उंगली पर स्याही लगा रही है। उन्होंने कहा- ये झुगगीवासियों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, पैसे के बदले उंगली पर स्याही लगावा ली या फिर फर्जी वोट डाल दिया



तो भाजपा वाले बाद में आपको ही फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देंगे।

केजरीवाल ने जनता के साथ अपने साथियों को भी धोखा दिया :

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा-

केजरीवाल ने न केवल जनता बल्कि अपने साथियों को भी धोखा दिया है। उनके विधायक उनकी नीतियों से मायूस होकर आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा बजट आया है जो सरकारी कोष नहीं बल्कि जनता की जेब भरने के लिए बनाया गया है।

भाजपा नेता सतीश उपाध्याय बोले- आप-दा दिल्ली से जाने वाली है

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा- आप-दा दिल्ली से जाने वाली है। भाजपा बहुमत से चुनाव जीतेगी। दिल्ली में कमल खिलने वाला है। लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है।

वक्फ संशोधन बिल-जॉइंट पार्लियामेंट्री

कमेटी मेंबर ने राय बदलने का आरोप लगाया

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सोमवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे एक दिन पहले जेपीसी मेंबर और

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। नसीर हुसैन का दावा है कि, रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जो असहमति जताई थी। उस हिस्से को उनकी परमिशन के बिना एडिट किया गया। हुसैन ने कहा- आखिर हम (विपक्ष) को चुप

कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है।

कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट के एडिट हिस्से को भी शेयर किया सैयद नसीर हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पंज शेयर किए।

बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र मुद्रण के लिए संपर्क करें।



उच्च क्वालिटी का कागज एवं स्याही

कलर एवं ब्लैक मुद्रण

किफायती मुद्रण लागत

Printing Press

• Homeedpura Road Khandwa, Newai, Tank, Rajasthan - 304021

Office

• Badhata Rajasthan, Near Rajkiya Mahavidhyalaya,

NH-12, Bypass Newai, Tank, Rajasthan - 304021

(M) +91-9214048888, Phone No. - 01438-223201, 02, 03

• 185/116, "Pratiksha", Sector-18, Pratap Nagar, Sanganeer, Jaipur - 302033

(M) +91-9414242258, Phone No. - 0141-2796795

Email: badhatarajasthanprintingpress@gmail.com